

नाविक भविष्य निधि

पत्रिका

नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

चौवनवीं

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जीखा

2019-2020

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 बालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : spfo.mum@gov.in

वेबसाइट: www.spfo.gov.in/

नाविक भविष्य निधि



नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

चौवनवीं वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा 2019-2020

--: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

ई-मेल : spfo.mum@gov.in

वेबसाइट: www.spfo.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	सूची	पृष्ठ संख्या
1.	विषय सूची.....	1
2.	न्यासियों की सूची.....	2
3.	प्रस्तावना.....	3
4.	न्यासी मंडल.....	3
5.	प्रशासन.....	3
6.	व्याप्ती.....	3
7.	वर्ष एक नजर में.....	4
8.	भविष्य निधि अंशदान.....	5
9.	निवेश.....	6
10.	ब्याज.....	6
11.	भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण और वसुली (बकाया).....	7
12.	क्षतिपूर्तियाँ.....	7
13.	अंतिम निकासियाँ.....	7
14.	अप्रत्यपर्णीय निकासी / अन्तिम निकासियाँ.....	8
15.	जब्त की गई धनराशि.....	8
16.	अंतरण और नियंत्रण मुक्तता.....	8
17.	लेखा / अन-पोस्टेड मदों के भाग का कम्प्यूटरीकरण.....	9
18.	प्रशासन खाता.....	9
19.	संगठन की परिसंपत्तियाँ.....	9
20.	राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट.....	10
21.	लेखा परीक्षण.....	10
22.	सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ.....	10
23.	धन्यवाद ज्ञापन.....	10
परिशिष्ट	नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या .	11
	अनुबंध 1. कुल निवेशों का सारांश	12
	अनुबंध 2. भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण	13
	अनुबंध 3. निवेशित राशियों का सारांश और अर्जित ब्याज की स्थिति.....	14
	अनुबंध 4. प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण.....	15
	अनुबंध 5. नाविक भविष्य-निधि संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार	16

**नाविक भविष्य निधि -
न्यासी मंडळ
2019 - 2020**

अध्यक्ष : 1) श्री अमिताभ कुमार नौवहन महानिदेशक (01.01.2019 से)

केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्य :

- 1) उप वित्त सलाहकर अथवा निदेशक (वित्त) अथवा उप-सचिव (वित्त)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 2) उप-नौवहन महानिदेशक (कू), (नाविक कल्याण से संबंधित), मुंबई ।
- 3) अतिरिक्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ अथवा उनके द्वारा नामांकित

नियोजकों (पोत मालिकों) का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

- 1) कैप्टन महेंद्र पाल भसीन
मेरीटाईम एसोसियेशन ऑफ शिपओनर्स, शिपमैनेजर एण्ड एजेंट्स, मुंबई ।
- 2) कैप्टन राजेश टंडन
फॉरन शिप ओनर्स एण्ड शिप मैनेजर एसोसियेशन (फोसमा), मुंबई ।
- 3) श्री. पी. के. राणे
इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसियेशन, मुंबई

नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

- 1) श्री. अब्दुलगनी वाई. सेरंग
महासचिव और कोषाध्यक्ष, नैशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया, मुंबई ।
- 2) श्री. एस. कलाइकोवन
नैशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया, चैन्नई ।
- 3) श्री. अमर सिंह ठाकुर
द मेरीटाईम यूनियन ऑफ इंडिया, मुंबई ।

सचिव : 1) श्री. सुभाष बरगुजर (13.06.2019 तक)
आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई ।

- 2) श्री. सुरेंद्र कुमार (14.06.2019 से)
आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई ।

-: कार्यालय :-

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

दूरभाष -

022-2261 6202 (आयुक्त - व्यक्तिगत) 022-2261 6925 या 022-2266 2044 (कार्यालय)

फैक्स : 022-2261 6202

Website : www.spfo.gov.in / E-mail : spfo.mum@gov.in

चौवनवीं वार्षिक रिपोर्ट (2019 - 2020)

नाविक भविष्य निधि योजना की कार्यप्रणाली पर वर्ष 2019 - 2020 की वार्षिक रिपोर्ट

नाविक भविष्य निधि संगठन के न्यासी मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों को वर्ष 2019 - 2020 के लिए नाविक भविष्य निधि स्कीम की कार्यप्रणाली पर चौवनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है ।

प्रस्तावना

2. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि स्कीम की स्थापना की गई जो 1 जुलाई 1964 से प्रभावी है । इसके अन्तर्गत नौवहन उद्योग में कार्यरत नाविकों को वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति लाभ तथा मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए इसकी शुरुआत की गई । भविष्य निधि स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नाविक भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना 9 जुलाई, 1966 में की गई ।

न्यासी मंडल

3. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत त्रिपक्षीय न्यासी मंडल का गठन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार के तीन नामजद प्रतिनिधि तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के तीन-तीन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है । नौवहन महानिदेशक, न्यासी मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं और नाविक भविष्य निधि आयुक्त जो न्यासी मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और मंडल के सचिव हैं ।

प्रशासन

4. आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन जो कि भविष्य निधि न्यासी मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सचिव भी हैं उनकी सहायता के लिए प्रशासकीय सह लेखाधिकारी और अन्य कर्मचारी सदस्य हैं । कर्मचारियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट अनुच्छेद - 4 में दिया गया है ।
 - 4.1 नाविक पाल कोलकता और वहाँ पर तैनात कर्मचारी ने कोलकता में पंजीकृत नाविकों की जरूरतों के लिए आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन के साथ सम्पर्क बना रखा है । इसके अतिरिक्त नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई और कोलकता, को कम्प्यूटर से जोडा गया है । यह कार्य प्रणाली सफलतापूर्वक नाविकों को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध करवाती है तथा एक कार्मिक को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात किया गया है ।

व्याप्ति

5. आलोच्य वर्ष के दौरान, नाविक भविष्य निधि स्कीम में करीब 94,142 खाते हैं ।

वर्ष एक नजर मे

6. वर्ष 2019 - 2020 तथा गत वर्ष के दौरान संगठन के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ।

क्र. स.	विवरण	2019 - 2020 ₹	2018 - 2019 ₹
6.1	(1) नाविक सदस्यों के खाते (2) प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (3) भविष्य निधि खाते में प्रगामी योग का शेष (जब्त खातों को छोड़कर)	94142 1,44,19,53,570.48 20,78,13,81,014.21	88419 1,331,191,296.00 18,687,489,358.86
6.2	(1) प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार (2) प्रशासनिक प्रभार की दर (3) अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज सहित) (4) सरकार से अनुदान (5) कुल आय (6) किया गया प्रशासनिक व्यय (7) अधिशेष	50,999,572.73 5% 69,35,999.58 Nil 57,935,572.31 41,675,057.43 16,462,124.23	46,132,678.55 5% 61,54,083.69 Nil 52,286,762.24 37,497,904.07 15,068,579.68
6.3	अन्तिम निकासी : (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई धनराशि	1498 677,847,795.48	1260 761,630,097.24
6.4	अप्रतिदेय निकासियाँ : (स्कीम के पैरा 58, क, ख, ग, च के अन्तर्गत) (1) भुगतान किए गए दावों की संख्या (2) भुगतान की गई राशि	2019 - 2020 ₹ 208 22,161,756.00	2018 - 2019 ₹ 349 33,397,900.00
6.5	भविष्य निधि खाते से भुगतान किए गये हर प्रकार के कुल मामलों की संख्या : (6.3 एवं 6.4 उपरोक्त) भुगतान की गई राशि	1706 700,009,551.48	1609 795,027,997.24
6.6	निवेश / पुनः निवेश की धन राशि (भ.नि. खाता)	2,253,398,293.80	3,243,955,091.91
6.7	(i) विनियोग पर अर्जित ब्याज (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज में वृद्धि / कमी	1,50,89,02,068.17* 741,15,626.00 5.17%	1,434,786,442.17** —
6.8	सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	1,350,777,406.00 7.25% की दर से	1,371,265,632.00 8.25% की दर से

* प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

** गए साल का अपवर्जित प्रोद्भूत ब्याज

भविष्य निधि अंशदान

7. आलोच्य वर्ष सहित पिछले चार वर्षों में भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति निम्नानुसार है :-

वर्ष	भविष्य निधि अंशदान ₹
2015 - 2016	946,255,731.42
2016 - 2017	1,074,720,795.87
2017 - 2018	1,225,543,809.29
2018 - 2019	1,331,191,296.00
2019 - 2020	1,441,953,570.48

7.1 दिनांक 31-03-2020 को भविष्य निधि खातों में ₹ 2082.99 करोड थे जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	धनराशि	कुल प्रतिशत
1.	भविष्य निधि अंशदान (अर्जित ब्याज सहित)	20,226,693,942.85*	97.10
2.	सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के प्रश्चात उचंत ब्याज खाते का शेष	553,564,419.06	2.66
3	ज़ब्त खाते में शेष	485,38,201.08	0.23
4.	भविष्य निधि उचन्त खाता (लौटाए गए चैक / मनीऑर्डर्स)	1,122,652.30	0.01
	योग :	20,82,99,19,215.29	100.00

निवेश

8. समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार भविष्य निधि की धनराशि को निवेशित किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2019 - 2020 के दौरान अंशदान और ब्याज से प्राप्त राशि ₹ 2,253,398,293.80 का निवेश / पुर्ननिवेश किया गया।

क्रमसंख्या	विवरण	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	1,135,235,636.41
3.	पी.एस.यू / एफ.आय.बॉण्ड्स	998,849,267.39
4.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	-
5.	म्युचअल फंड / इक्विटीज्	119,313,390.00
	कुल योग	2,253,398,293.80

- 8.1 कुल राशि ₹ 2082.99 करोड़ जिसका विवरण पैरा 7.1 की रिपोर्ट में है, उसमें से ₹ 20,226,693,942.85 की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की गई है जिसे अनुबंध 1 में दर्शाया गया है। ₹ 219,206,118.70 की राशि भविष्य-निधि के बचत खाते में जमा है। निवेशों पर प्राप्त होने वाला प्रोद्भूत ब्याज ₹ 475,653,985.87। ₹ 53,599.06 की राशि ज़बती खाते के बैंक के बचत खाते में जमा है। जिसपर प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज ₹ 472,56,763.16 है। इसके अतिरिक्त ₹ 12,27,838.86 की राशि ज़ब्त खाते से निवेशित की गई है।
- 8.2 भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किये गए दावों का विवरण आलोच्य वर्ष सहित पाँच वर्षों के लिए अनुबंध - 2 में दर्शाया गया है।

ब्याज

9. पिछले वर्ष प्राप्त नकद ₹ 1,434,786,442.17 की तुलना में कुल निवेश की धनराशि पर ₹ 1,50,89,02,068.17 ब्याज (प्राद्भूत ब्याज मिलाकर) प्राप्त हुआ है। ब्यौरा अनुबंध-3 में दर्शाया गया है।
- 9.1 योजना के अनुच्छेद 51 के अनुसार, ब्याज की दर न्यासी मंडल के साथ परामर्श के बाद सरकारी अनुमोदन से सुनिश्चित की जाती है और उसके अनुसार सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में ब्याज जमा किया जाता है। वर्ष 2019-2020 के लिए 7.25% की वार्षिक दर से ब्याज जमा किया गया।
- 9.2 वर्ष 2019-2020 में सदस्यों के खाते में ब्याज ₹ 1,350,777,406.00 जमा करने के बाद ब्याज उचंत खाते में ₹ 553,564,419.06 की राशि शेष है और निवेशों पर उपलब्ध ब्याज प्रोद्भवन आधार पर है।
- 9.3 आलोच्य वर्ष सहित पिछले वर्ष चार वर्षों में सदस्यों के लिए अनुगत ब्याज दर नीचे दर्शाई जा रही है :-

वर्ष	ब्याज की दर
2015 - 2016	9.00%
2016 - 2017	9.00%
2017 - 2018	8.50%
2018 - 2019	8.25%
2019 - 2020	7.25%

भविष्य निधि अंशदानों का प्रेषण / वसूली (बकाया)

10. अधिकतर नियोक्ताओं ने निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत भविष्य निधि अंशदान देना जारी रखा है ।
- 10.1 भ.नि. विवरणों की नियमित सुविचारित समीक्षा और मिलान नियमावली के रूप में जारी रहा है और जहाँ कहीं कोई नियोक्ता अंशदान को निर्धारित अवधि में प्रेषित करने में असफल रहा, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया । जब कोई नियोक्ता, कारण बताओ सूचना देने के बाद भी अंशदान भेजने में असफल रहते हैं, ऐसे नियोक्ताओं से नाविक भविष्य निधि अधिनियमन 1966, की धारा 9 के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वसूली की जाती है ।
- 10.2 आलोच्य वर्ष के दौरान नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, की धारा 9 के अन्तर्गत बकाया वसूली के लिए मेसर्स एस्सार शिपिंग लि. के विरुद्ध एक जाँच आयोजित की गई । मेसर्स एस्सार शिपिंग लि. से ₹ 425,343.00 भविष्य निधि अंशदान और ₹ 21,267.00 की राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में वसूल की गई ।
- 10.3 ₹ 3,678,184.00 की राशि भविष्य निधि के रूप में और ₹ 130,188.00 प्रशासनिक व्यय के रूप में मेसर्स मरकेटर लि. से वसूल की गई है जो परिसमापन में चली गई है ।
- 10.4 उपरोक्त वसूलियों के अलावा ₹ 346,456.27 की धनराशि विभिन्न नौवहन कम्पनियों पर बकाया है जो कि समापन में चली गयी है । प्रक्रिया विधि अनुसार कार्यालय परिसमापक को इन क्षतिपूर्तियों की धनराशियों के लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं ।

क्षतिपूर्तियाँ

11. आलोच्य वर्ष के दौरान भविष्य निधि अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 54,97,652.39 की धनराशि प्राप्त की गई । आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	वसूली गई क्षतिपूर्तियाँ ₹
2015 - 2016	1,802,438.32
2016 - 2017	3,214,302.00
2017 - 2018	1,545,816.00
2018 - 2019	6,513,137.00
2019 - 2020	54,97,652.39

अंतिम निकासियाँ

12. बाहर जाने वाले सदस्यों को लगभग ₹ 67.78 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया तथा 1498 खातों को बंद किया गया, आलोच्य वर्ष और गत पाँच वर्षों के दौरान बन्द किए खातों की संख्या तथा भुगतान की गई धनराशि निम्नलिखित है ।

वर्ष	मामलों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि ₹
2015 - 2016	969	627,203,048.45
2016 - 2017	1071	596,319,065.58
2017 - 2018	1288	717,880,076.09
2018 - 2019	1260	761,630,097.24
2019 - 2020	1498	677,847,795.48

- 12.1 नाविक भविष्य निधि के बचत खाता केनरा (सिंडीकेट) बैंक, मुंबई से सभी अंतिम निकासी और अप्रत्यक्ष निकासियों का भुगतान आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के द्वारा नाविकों के खातों में प्रेषित किया जाता है, परंतु जहाँ कहीं सिंडीकेट बैंक के नाविक के खातों में त्रुटि या गलती मिलती है उन संबंधित राशियों को बैंक खारिज कर देता है और तदनुसार नाविक भविष्य निधि को सूचित करता है, नाविक भविष्य निधि कार्यालय संबंधित नाविकों आश्रितों से पत्र व्यवहार करके त्रुटियों को दूर कर फिर से नाविकों के खातों में राशि भेजी जाती है परंतु जहाँ कहीं पुराने रिटर्न चैक (आर सी एच) मामलों में संबंधित नाविक एवं उनके परिवारों से पत्र व्यवहार करने के बाद संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही नाविक भविष्य निधि राशि का फिर से भुगतान किया जाता है ।

अप्रत्यपर्णीय निकासी (नॉन-रिफण्डेबल) / अन्तिम निकासियाँ

13. संगठन ने अपने तंत्र को अन्तिम/अप्रतिदेय निकासी के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सदस्यों/उनके आश्रितों के अन्तिम निकासी के दावों और अप्रतिदेय निकासियों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए चुस्त किया है। अप्रतिदेय निकासी / अप्रत्यपर्णीय निकासी के आवेदन, पेशगी रसीद, मेन्डेट फार्म और चेक लिस्ट (जमा किये गये दस्तावेजों का विवरण) आवेदन फार्म के साथ देना अनिवार्य है इसके लिए सभी प्रकार के फार्म ना.भ.नि. सं. की वेबसाईट में अपलोडेड किए गये हैं इन्हें सिस्टम से डाउनलोड करके आवेदक इन आवेदनों को पूर्ण रूप से भरकर नाविक भविष्य निधि राशि के भुगतान के लिए आवेदन करता है। संगठन के तरफ से अच्छी तरह से काम करने के बाद भी दावा सुलझाने के लिए समय लगता है क्योंकि जहाँ पर नाविक ने नामांकन फार्म नाविक भविष्य निधि संगठन में आश्रित को नामांकित नहीं किया है ऐसे मामलों में नाविक भविष्य निधि संगठन जिलाधिकारी / पुलिस अधिकारी से तुरंत पत्र व्यवहार करके संबंधित नाविक के वारिस का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिससे भुगतान करने में विलंब न हो फिर भी मृत नाविक/आश्रितों के कानूनन वारिस के कागजाद प्राप्त नहीं होने के कारण विलंब होता है। नाविक भविष्य निधि संगठन ने नाविकों के सभी अन्तिम /अप्रतिदेय निकासियों का भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा नाविकों के खातों में सीधा जमा करना वर्ष 2013 से प्रारंभ कर दिया है।

13.1 नाविक भविष्य निधि संगठन ने नाविकों को अपना खाता देखने के लिए एक वेबसाईट बनाई है और उन्हें अभिलेखों के सत्यापन के लिए लॉग-इन और पासवर्ड दिया गया है जिससे नाविक अपने लॉग-इन और पासवर्ड कम्प्यूटर मशीन में भरकर अपने खातों का विवरण देख सकते हैं और साथ ही इस कार्यालय की वेबसाईट से सभी प्रकार के फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

13.2 नाविक भविष्य निधि संगठन ने वेब सर्वर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ताकि नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाईट में जाकर अपना पी.एफ. के खाते का विवरण देख सकते हैं।

13.3 नाविक भविष्य निधि संगठन ने 01.04.2020 से एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे शिपिंग कंपनियां भ. नि. अंशदान का प्रेषण कर सकती हैं और नाविक ऑन-लाइन अंतिम निकासी /अप्रतिदेय निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जब्त की गई धनराशि

14. जब्त खाते में से कुल धनराशि ₹ 47,256,763.16 निवेशित की गई है और ₹ 53,599.06 बचत खाते में जमा है।

14.1. आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्षों में जब्त की गई धनराशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	जब्त की गयी धनराशि ₹
2015 - 2016	-
2016 - 2017	-
2017 - 2018	-
2018 - 2019	40,230.00
2019 - 2020	6303.00

अंतरण और नियंत्रण मुक्तता

15. आलोच्य वर्ष की समीक्षा के अंतर्गत कोई भी मामला नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अंतर्गत कोई भी मामला प्राप्त नहीं हुआ है। नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 20 (1) के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता को नियंत्रण मुक्त नहीं किया गया है।

लेखा / अन-पोस्टेड मदों के भाग का कंप्यूटरीकरण

16. वर्ष 2016 - 2017 के लिए सदस्यों की लेखा पर्चियां सदस्यों को भेजी गई हैं ।
वर्ष 2018 - 2019 और 2019 - 2020 के लिए सदस्यों की लेखा पर्चियां सदस्यों को भेजी जा रही हैं ।
फिर भी नाविक "http://spfo.gov.in" वेबसाईट पर जाकर अपने खाते का विवरण देख सकते हैं ।
- 16.1 आलोच्य वर्ष के लिए बिना इन्दराज किए गए अंशदानों की निकासी में निम्नलिखित प्रगति हुई है :-

	प्रविष्टियों की संख्या	धनराशि (₹)
पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	3850	56,760,489.78
जोड़ : वर्ष 2019 - 2020 के दौरान	3203	46,354,031.43
योग	7053	103,114,521.43
घटाएं : वर्ष के दौरान क्लियर (-)	740	12,466,023.00
शेष	6313	90,648,498.43

प्रशासन खाता

17. योजना का प्रशासनिक व्यय 5% की दर से (नियोक्ता + नाविक) के भविष्य-निधि योगदान से नियोक्ताओं द्वारा संग्रहित किया गया । प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण पांच वर्षों के लिए अनुबंध 4 में दिया गया है।
- 17.1 ₹ 84,597,438.38 की धनराशि प्रशासनिक प्रभार खाते में वर्ष अन्त में शेष थी । प्रशासनिक खाते से ₹ 794,26,772.25 की धनराशि नियतकालीन विनियोजन में निवेशित है । 31 मार्च 2020 को ₹ 51,62,208.98 बचत खाते में और ₹ 8457.20 का राशि हाथ में शेष थी ।
- 17.2 31मार्च 2020 को पेन्शन /उपदान फण्ड में ₹ 992,67,461.01 की राशी प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी है और शेष ₹ 16,647.94 बचत खाते में जमा है ।

संगठन की परिसंपत्तियाँ

18. नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के पैरा 44 (3) के अनुसार आलोच्य वर्ष के लिए संगठन की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सारांश इस रिपोर्ट के अनुबंध 5 में दिया गया है ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट

19. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/24001/976 – रा.भा. (ए-1) दिनांक 7 फरवरी 1977 के अनुसार जांच बिन्दुओं की स्थापना की गयी है तथा वार्षिक कार्यक्रम में इन्हें कार्यान्वित करके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजभाषा का प्रगामी प्रयोग करने के लिए कारवाई की गई। कार्यालय के दैनिक कामकाज में प्रयोग आने वाले सभी फार्मों को द्विभाषिक रूप में अनुवादित करके छपवाया गया है। 80% से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में ही दिये जाते हैं। हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए हिन्दी दिवस भी मनाया गया। आई.एस.एम. आफिस वी 5 (ए.एल) हिन्दी साफ्टवेयर का संशोधित संस्करण कम्प्यूटरों में डालकर हिन्दी टंकण संबंधित कार्य कम्प्यूटरों से ही किया जा रहा है।

लेखा परीक्षण

20. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक केन्द्रीय मुंबई द्वारा, नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 2019-2020 के खातों का लेखा परिक्षण किया गया।

सतर्कता इकाई की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

21. आयुक्त महोदय के सीधे नियंत्रण में सतर्कता इकाई कार्यशील है। वर्ष के दौरान इस इकाई के पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई। अतः किए गए दावे यथासमय निपटा दिए जाते हैं।

धन्यवाद ज्ञापन

22. मंडल ने, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, नौवहन महानिदेशालय, नाविक पालों, निदेशक, नाविक नियोजन कार्यालयों, जिलाधियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा नियोक्ताओं एवं नाविकों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार प्रदर्शित किया तथा उनके सहयोग की प्रशंसा की।

आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय ने भविष्य निधि - धनराशियों के त्वरित वितरण एवं भुगतान सहित सभी दिशाओं में लगातार सफलता अर्जित की है। वर्ष के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए मंडल ने कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की है।



सुरेंद्र कुमार
सचिव,
न्यासीमंडल

नाविक भविष्य निधि, मुंबई

परिशिष्ट
(अनुच्छेद 4)

नाविक भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	एस.सी. कर्मचारी	एस.टी. कर्मचारी	ओ.बी.सी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रुप 'ए'	2	1	-	-	-
2	ग्रुप 'बी' (नॉन गजेटेड)	1	-	-	-	-
3	ग्रुप 'सी'	28	10	1	-	2
4	ग्रुप 'डी'	5	1	1	-	-
	कुल	36	12	2	-	2

अनुबंध - 1
(अनुच्छेद 8.1 का संदर्भ)

31.03.2020 को कुल निवेशों का सारांश

क्रम संख्या	निवेश पध्दति (1)	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) (2)	किताबी मूल्य (बूक वेल्यू) (3)
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	2,104,280,000.00	2,120,636,250.97
2.	राज्य सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत की गई प्रतिभूतियाँ	7,765,800,000.00	7,893,952,555.86
3.	पी एस यू / एफ आय बाँड्स	5,886,150,000.00	5,943,915,557.38
4.	विशेष जमा	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5.	दीर्घ काल के टीडीआर	133,658,000.00	133,658,000.00
6.	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	-	-
7.	म्युचुअल फंड्स	715,178,090.00	715,178,090.00
	कुल योग	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85

अनुबंध -2
(अनुच्छेद 8.2 का संदर्भ)

भविष्य निधि अंशदान की प्राप्ति, क्षतिपूर्ति और भुगतान किए गए दावों का विवरण

वर्ष (1)	भविष्य-निधि अंशदान की प्राप्त धनराशि (2) ₹	क्षतिपूर्ति की वसूल की गई कुल धनराशि (3) ₹	दावों का भुगतान अंतिम / अप्रतिदेय निकासियाँ (4) ₹	स्तंभ (2) से प्राप्त भ.नि. पर दावों का प्रतिशत (5) %
2015-2016	946,255,731.42	1,802,438.32	641,485,072.45	67.78%
2016-2017	1,074,720,795.87	3,214,302.00	616,174,065.58	57.33%
2017-2018	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49%
2018-2019	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-2020	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%

अनुबंध -3
(संदर्भ अनुच्छेद 9)

निवेशित राशियों का सारांश, कुल निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की स्थिति व आलोच्य वर्ष सहित पिछले पाँच वर्ष का विवरण.

वर्ष (1)	अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) (2) ₹	किताबी मूल्य (बुक वेल्यू) (3) ₹	अर्जित ब्याज (4) ₹
2015-16	12,902,026,193.64	13,030,320,975.37	1,126,325,142.91
2016-17	14,466,433,890.44	14,615,325,307.86	1,221,267,637.84
2017-18	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-19	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17 *
2019-20	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,50,89,02,068.17 #

प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

* पिछले साल का प्रोद्भूत ब्याज को छोड़कर

अनुबंध -4
(संदर्भ अनुच्छेद 17)

भविष्य निधि अंशदान
प्रशासनिक प्रभार प्राप्तियाँ और व्यय का वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक का विवरण

वर्ष	कुल अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर	भविष्य निधि अंशदान (अन्य प्राप्तियाँ शामिल है) ₹	प्रशासनिक प्रभार (अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं) ₹	व्यय ₹	प्रशासनिक प्रभार की निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹
2015 - 2016	5%	946,255,731.42	29,511,492.75	29,359,043.83	4.459 705.99#
2016 - 2017	5%	1,074,720,795.87	35,544,997.14	29,617,356.00	4,993,063.10 #
2017 - 2018	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	62,79,917.63 #
2018 - 2019	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	60,58,403.69#
2019 - 2020	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	65,71,648.58#

प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन
की परिसंपत्तियों का वर्गीकृत सार

I परिसम्पत्तियों की श्रेणी

लागत मूल्य के अनुसार 31.03.2020
को किताबी मूल्य (मूल्य ह्रास अस्वीकृत)

नाविक भविष्य निधि लेखा :	₹
(1) भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	2,120,636,250.97
(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ	7,893,952,555.86
(3) पी.एस.यू. / एफ.आय.बाँड	5,943,915,557.38
(4) विशेष जमा	3,419,353,488.64
(5) दीर्घ काल के टीडीआर	133,658,000.00
(6) मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स	-
(7) म्युचुअल फंड्स	7,151,78,090.00
कुल योग	<u>20,226,693,942.85</u>

२. बैंक शेष

(1) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई	--
(2) केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक), मुंबई	1,027,60,890.69
(3) भारतीय स्टेट बैंक (निवेश खाता)	1,164,45,228.01

II प्रशासन खाता :

(1) निवेशित राशि	794,26,772.25
(2) बैंक, शेष	
(क) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई	31,479.28
(ख) बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	9,922.44
(ग) सिंडिकेट, मुंबई	51,20,807.26
(3) नकद शेष	8,457.20

III परिसम्पत्तियों की मूल्य : *

(1) कार्यालय भवन	88,030.51
(2) फर्निचर, फिक्सचर इत्यादि	198,501.51
(3) कार्यालय उपकरण	141,462.38
(4) संगणक	32,609.97
(5) कानूनी सॉफ्टवेअर	45,953.43
(6) कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान	8,100,000.00
(7) प्रोजेक्टर के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान	369,338.00
(8) कार्यालय परिसर की मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान का प्रावधान	2,947,117.00
(9) नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को अग्रिम भुगतान	360,000.00
(10) कंप्यूटर हार्डवेअर की खरीद के लिए प्रावधान	493,140.00
(11) नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान का प्रावधान	6,00,000.00
(12) नए सॉफ्टवेअर के विकास के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान का प्रावधान	9,90,000.00

* परिसंपत्तियों का मूल्य वस्तुओं की डब्ल्यू.डी.वी. की लागत पर आधारित है।

ह/-

सुरेन्द्र कुमार

आयुक्त,

नाविक भविष्य निधि, मुंबई

NAVIK BHAVISHYA NIDHI



54th
R
E
P
O
R
T

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)**

**54TH (FIFTY FOURTH)
ANNUAL REPORT
2019 - 2020**

**ON THE WORKING OF
SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966**

**OFFICE OF
THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER
KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG,
BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.**

FAX - 022-2261 62 02

PHONE - 022-22616925, 022-22662044

E-mail Address : spfo.mum@gov.in

Web site : www.spfo.gov.in

C O N T E N T S

Chapter No.		Page Nos
I.	Contents	01
II.	List of Trustees	02
III.	Introduction	03
IV.	Board of Trustees	03
V.	Administration	03
VI.	Coverage	03
VII.	Year at a Glance	04
VIII.	Provident Fund Contributions	04
IX.	Investments	05
X.	Interest	05 - 06
XI.	Remittance/Recoveries of Provident Fund Contributions (Arrears)	06
XII.	Damages	06
XIII.	Final Withdrawals	07
XIV.	Non-refundable Withdrawals	07
XV.	Forfeiture	07
XVI.	Transfers and Exemptions	08
XVII.	Computerisation of part Accounts/Unposted Items	08
XVIII.	Administration Account	08
XIX.	Assets of the Organisation	08
XX.	Report on progressive use of RAJBHASHA	08
XXI.	Audit	09
XXII.	Activities and Achievements of the Vigilance Units	09
XXIII.	Acknowledgements	09
Appendix	Total number of Employees in the Seamen's Provident Fund Organization	10
Annexure 1.	Summary of Aggregate Investments	11
Annexure 2.	Summary of Collection of Provident Fund, Damages and Claims Paid	12
Annexure 3.	Position of Investments and Interest earned	13
Annexure 4.	Collection of Provident Fund/Administrative Charges and Expenditure	14
Annexure 5.	Classified Summary of the Assets of the Organization	15

**SEAMEN'S PROVIDENT FUND
BOARD OF TRUSTEES
2019-2020**

CHAIRMAN **Shri Amitabh Kumar**, (w.e.f 01.01.2019)
Director, General of Shipping

Government Representatives:

1. Deputy Financial Advisor or Director (Finance) or Deputy Secretary
Ministry of Ports, Shipping and Waterways, New Delhi
2. Deputy Director General of Shipping (Crew), Mumbai
(Dealing with Seamen's Welfare)
3. Additional Central Provident Fund Commissioner
EPFO, or his Nominee

Employers' (Shipowners) Representatives:

1. **Capt. Mahendra Pal Bhasin**
Maritime Association of Ship owner
Ship Managers and Agents', (MASSA) Mumbai.
2. **Capt. Rajesh Tandon**
Foreign Owners Representatives and
Shipmanagers Association, (FOSMA), Mumbai.
3. **Shri P. K. Rane**
Indian National Shipowners' Association, (INSA)
Mumbai

Seamen's Representatives :

1. **Shri Abdulgani Y. Serang**,
General Secretary-cum-Treasurer
National Union of Seafarers of India, Mumbai.
2. **Shri S. Kalaikovan**
National Union of Seafarers of India, Chennai
3. **Shri Amar Singh Thakur**
The Maritime Union of India, Mumbai

SECRETARY : 1. **Shri Subhash Barguzer** (upto 13.06.2019)
Commissioner,
Seamen's Provident Fund Organisation.

2. **Shri Surendra Kumar** (w.e.f. 14.06.2019)
Commissioner,
Seamen's Provident Fund Organisation.

OFFICE :

"Krupanidhi", 3rd Floor, 9, Walchand Hirachand Marg,
Ballard Estate, Mumbai - 400 001.

Telephones :- 022-22616202 (Commissioner - Personal)
2261 6925, 22662044 (Office)

Fax: 022-22616202

Web site : www.spfo.gov.in

E-mail Address : spfo.mum@gov.in

FIFTY FORTH ANNUAL REPORT
ON THE WORKING OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND
SCHEME FOR THE YEAR 2019-2020

The Chairman and Members of the Board of Trustees, Seamen's Provident Fund have the pleasure in presenting this 54th Annual Report on the working of the Seamen's Provident Fund Scheme for the year 2019-2020.

INTRODUCTION

2. The Seamen's Provident Fund Scheme framed under the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) was introduced retrospectively w. e. f. 1st July, 1964 to provide for the institution of a Provident Fund for all Seamen, in view of the obvious need to provide old age retirement benefit to the seamen members engaged in the Shipping Industry (Merchant Navy) and their family members in the event of death. To administer the Provident Fund Scheme, the Office of the Seamen's Provident Fund Commissioner was established on the 9th July, 1966.

BOARD OF TRUSTEES

3. The tripartite Board of Trustees consisting of the Government appointed Chairman, three nominees of the Central Government, three representatives each of the Employers and Employees is constituted under Section 5 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. The Director General of Shipping is the Ex-Officio Chairman of the Board of Trustees and the Seamen's Provident Fund Commissioner who is Chief Executive Officer, is the Secretary to the Board.

ADMINISTRATION

4. The Commissioner is assisted by Administrative-cum-Accounts Officer and other members of the Staff. Details of the staff given in appendix.
- 4.1 The Shipping Master, Kolkata and his staff continued to do liaison work of the Seamen's Provident Fund Organization at Kolkata for catering to the needs of Kolkata registered seamen. Upto date information is provided to the member seamen through the Computer Link established between Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai and Kolkata and personnel has been posted at Kolkata to ensure uninterrupted service.

COVERAGE

5. During the year under review, the Seamen's Provident Fund Scheme covered about 94142 accounts.

YEAR AT A GLANCE

6. The following synopsis presents the performance of the Organization during the year 2019-2020 and its preceding year.

Sr. No.	Particulars	2019-20 (Rs.)	2018-19 (Rs.)
6.1. (1)	Seafarers' Member A/cs	94142	88419
(2)	Provident Fund Contributions received	1,44,19,53,570.48	1,331,191,296.00
(3)	Progressive total balance in the Provident Fund A/c (excluding Forfeiture A/c)	20,78,13,81,014.21	18,687,489,358.86
6.2 (1)	Administrative charges Received	50,999,572.73	46,132,678.55
(2)	Rate of Administrative Charges	5%	5%
(3)	Other receipts including Interest (Admin A/c)	69,35,999.58	61,54,083.69
(4)	Grant from Government	NIL	NIL
(5)	Total Income	57,935,572.31	52,286,762.24
(6)	Administrative expenditure incurred	41,675,057.43	37,497,904.07
(7)	Surplus	1,64,62,124.23	15,068,579.68
6.3	Final Withdrawals	-	-
	(1) No. of cases paid	1498	1260
	(2) Amount Paid	677,847,795.48	761,630,097.24
6.4	Non Refundable Withdrawals: (Under Para 58A,B,C&E of the Scheme)	2019-20 (Rs.)	2018-19 (Rs.)
	(1) No. of cases	208	349
	(2) Amount paid	22,161,756.00	33,397,900.00
6.5	Total cases paid of all types from P.F. A/c. (6.3 & 6.4 above) Amount Paid	1706 700,009,551.48	1609 795,027,997.24
6.6	Amount invested/reinvested during the year (Provident Fund A/c.)	2,253,398,293.80	3,243,955,091.91
6.7	Interest earned on investment during the year	1,508,902,068.17*	1,434,786,442.17**
	Decrease / increase in interest	741,15,626.00 5.17%	-- --
6.8	Interest credited to members Accounts	1,350,777,406.00 7.25%	1,371,265,632.00 8.25%

* Includes accrued interest

** Accrued interest for previous year excluded

PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS

7. The receipts of Provident Fund Contributions for the preceding 5 years and the year under review are shown below:

YEAR	PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS RUPEES
2015-16	946,255,731.42
2016-17	1,074,720,795.87
2017-18	1,225,543,809.29
2018-19	1,331,191,296.00
2019-20	1,441,953,570.48

7.1 As on 31.03.2020 the total amount held in the Provident Fund Account is Rs. 2082.99 crores, the break-up of which is given below:-

Sr. No.	Head of Account	Amount (Rs.)	Percentage Total (Approx.)
1.	Provident Fund Contributions (including interest)	20,226,693,942.85	97.10
2.	Balance in the interest Suspense Account after crediting the interest to the Member's Account.	553,564,419.06	2.66
3.	Balance in Forfeiture Account	485,38,201.08	0.23
4.	Provident Fund Suspense Account (Returned Cheques/ Money orders)	1,122,652.30	0.01
	TOTAL	20,82,99,19,215.29	100

INVESTMENTS

8. The Provident Fund amounts are invested as per pattern of investments prescribed by the Government of India from time to time. Investments/re-investments made during the year 2019-2020, out of the contributions and interest proceeds were ₹ 2,253,398,293.80.

Sr.No.	Details	Book Value
1.	Central Government Securities	-
2.	State Government (SDL)	1,135,235,636.41
3.	PSU / FI Bonds	998,849,267.39
4.	Money Market Instruments	-
5.	Mutual Fund / Equity	119,313,390.00
	TOTAL	2,253,398,293.80

8.1 From the aggregate balance amount of Rs. 2082.99 crores mentioned in Para 7.1 of the Report, a sum of Rs. 20,226,693,942.85 stood invested as per pattern of investment prescribed by the Government from time to time as shown in Annexure 1. An amount of Rs. 219,206,118.70 was kept in the Savings Bank Account (Provident Fund). Accrued interest receivable on investment is Rs. 475,653,985.87 A sum of Rs. 53,599.06 is lying in Saving bank of Forfeiture Account. Besides, a sum of Rs. 472,56,763.16 is kept invested from Forfeiture Account and accrued interest receivable is Rs. 12,27,838.86

8.2 A summary of collection of Provident Fund, damages and claims settled during the past 5 years and the year under review is shown in **Annexure-2**.

INTEREST

9. The interest earned (including accrued interest) during the year on the total investments amounted to Rs. 1,50,89,02,068.17 as against Rs. 1,434,786,442.17 during the previous year. The details are at **Annexure - 3**.

9.1 As provided under Para 51 of the Scheme, the rate of interest to be credited to Member's Account is determined by the Government in consultation with the Board and credited to the individual Member's Account. The interest rate for the year 2019-2020 was 7.25%.

9.2 A sum of Rs. 553,564,419.06 is the balance in the Interest Suspense Account after crediting Rs.1,350,777,406.00 to the members account's for the year 2019-2020 and providing interest on investment on accrual basis

9.3 The rates of interest allowed to the Members for the preceding five years and the year under review are given below:-

Year	Rate of Interest
2015 - 2016	9.00%
2016 - 2017	9.00%
2017 - 2018	8.50%
2018 - 2019	8.25%
2019 - 2020	7.25%

REMITTANCE/RECOVERIES OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS (ARREARS).

10. Most of the employers continued to remit Provident Fund Contributions within the specified period.
- 10.1 A systematic careful scrutiny and comparison of Provident Fund returns continued to be made manually and wherever employers failed to remit the Contributions within the stipulated time, their attention was drawn to the lapse on their part by issuing show cause notices. Where the employers failed to remit the contributions even after the issue of show cause notices, action is being taken under Section 9 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 for recovery of dues.
- 10.2 During the year one Inquiry was conducted /against M/s. Essar Shipping Ltd. under Section 9 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 for recover of dues. Sum of Rs. 425,343.00 (PF) and Rs. 21,267.00 (ADM) has recovered from M/s. Essar Shipping Ltd.
- 10.3 Rs. 3,678,184.00 (PF) and Rs. 130,188.00 (ADM) has been recovered from M/s. Mereatore Ltd. who has gone liquidation.
- 10.4 Besides the above recoveries, an amount of Rs.346,456.27 was outstanding from various Shipping Companies which have gone into liquidation. As per procedure, the claims were filed with the respective Official Liquidators for recovery of these amounts.

DAMAGES

11. An amount of Rs. 54,97,652.39 recovered as Damages for delayed payment of Provident Fund Contributions and Administrative Charges during the year. The position of recovery of Damages for the preceding 5 years together with the year under review is given below: -

YEAR	DAMAGES RECOVERED (Rs.)
2015 - 2016	1,802,438.32
2016 - 2017	3,214,302.00
2017 - 2018	1,545,816.00
2018 - 2019	6,513,137.00
2019 - 2020	54,97,652.39

FINAL WITHDRAWAL

12. A sum of Rs. 67.78 crores was paid to outgoing members. The total number of 1498 accounts closed and amount paid to the members seafarers during the last five years and the year under review are as under: -

YEAR	NO. OF CASES	AMOUNT PAID (Rs.)
2015 - 2016	969	627,203,048.45
2016 - 2017	1071	596,319,065.58
2017 - 2018	1288	717,880,076.09
2018 - 2019	1260	761,630,097.24
2019 - 2020	1498	677,847,795.48

- 12.1 All the payment of Final withdrawal and NRW are remitted through RTGS / NEFT by the banker i.e. Syndicate bank wherein if error is found in the seafarers bank details account the same is rejected by the bank under intimation to this office and accordingly, after calling the bank details from the seafarer the amount is remitted again. However, the payment of old RCH cases (Return cheque) are being processed after calling the details from the seafarer and their families.

NON – REFUNDABLE WITHDRAWAL/FINAL WITHDRAWAL

13. The Organization has geared up its machinery to ensure expeditious payment of Final Withdrawal claims and Non-Refundable Withdrawal claims to the members and / or to the next of kins of the deceased members. All the Final withdrawal / NRW application form, advance stamped receipt, mandate form and check list (i.e. list of documents required along with the application form.) Accordingly, all the forms are uploaded on the spfo website which can be downloaded from the website for claiming the amount. However, in spite of the best efforts of the Organization, delay occurs in cases where nominations do not exist and/or where legal heirship reports are required from the respective revenue/police authorities or where the relevant documents are yet to be received from the seamen members or legal heirs of the deceased seamen. Seamen's Provident Fund Organization has started all remittances through RTGS/NEFT in place of cheque for instance credit in the members accounts.
- 13.1 The seamen reporting to this Office are personally informed about the website of SPFO along with their Login Id number and password for verification of their records and all the forms can be downloaded from this office website.
- 13.2 The SPFO had successfully commissioned web server. So the seaman can view their PF account (view only) by visiting "http://spfo.gov.in".
- 13.3 SPFO has developed new software w.e.f. 01.04.2020, so that the shipping companies can remit the Provident Fund contribution and Seafarer can apply for FW / NRW online.

FORFEITURE

14. In the Forfeiture Account total amount of Rs.472,56.763.16 was kept invested and sum of Rs. 53,599.06 is lying in Saving Account.
- 14.1 The amount forfeited during the preceding five years and the year under report is given below:-

YEAR	Amount Forfeited Rs
2015 - 2016	-
2016 - 2017	-
2017 - 2018	-
2018 - 2019	40,230.00
2019 - 2020	6303.00

TRANSFERS AND EXEMPTIONS

15. No cases for transfer of accounts from this Organization to the new Employers of the seamen members concerned were received during the year under review under Section 19 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. No exemption was allowed to any employer under Section 20 (1) of the Seamen's Provident Fund Act, 1966.

COMPUTERISATION OF PART ACCOUNTS / UNPOSTED ITEMS

16. The members Account Slips for the year 2016-17 has been dispatched to the respective seamen member and Account Slips for the year 2019-2020 is under process. However seafarer can view their account by visiting spfo.gov.in

- 16.1 The progress made in clearance of un-posted contributions for the year was as under: -

	No. of Entries	Amount Rs.
Balance as per Last report	3850	56,760,489.78
Add: During the year 2017-2018	3203	46,354,031.43
	<u>7053</u>	<u>103,114,521.43</u>
Less : Cleared during the year	740	12,466,023.00
Balance	6313	90,648,498.43

ADMINISTRATION ACCOUNT

17. The expenditure towards Administration of the Scheme is met from the 'Administrative Charges' levied at the rate of 5% on matching (Employer + Employee's share) Provident Fund Contributions collected from the Employers. The receipts of Administrative Charges and Expenditure incurred for the five years are given in **Annexure- 4**.

- 17.1. An amount of Rs. 84,597,438.38 stood as balance in the Administrative Charge Account at the end of the year. Periodical investments from the balance in Administration Account are made and a sum of Rs. 794,26,772.25 stands invested. A sum of Rs. 51,62,208.98 as on 31.03.2020 was lying in Saving Bank Accounts and a sum of Rs. 8457.20 cash in hand.

- 17.2 As on 31.03.2020, the investment of Pension / Gratuity Fund was Rs.992,67,461.01 lying invested in Securities and a sum of Rs. 16,647.94 is lying in Saving Bank Account.

ASSETS OF THE ORGANISATION

18. A classified summary of the assets of the Organization as required under Para 44 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 for the year under review is given in **Annexure - 5**.

REPORT ON PROGRESSIVE USE OF RAJBHASHA

- 19 As provided under Department of Official Language O.M.No.1/24001/976-OL (A-1) dated 07/02/1977, the check points have been identified for annual programme and action has been taken to achieve physical target of making progress in the use of 'Rajbhasha' by this Office. All type of forms are translated in Hindi and are printed bilingually for day to day use. More than 80% employees are trained so far and letters received in Hindi are strictly replied in Hindi. 'Hindi Day' was also celebrated to promulgate Hindi. Hindi software "ISM Office V5 (AL)" has been installed in the computers and entire official work is done on it.

AUDIT

20. The Principal Director of Audit, Central Mumbai has been requested to conduct the Audit of Annual Accounts of the Organization for the year 2019 – 2020.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE UNITS.

21. A vigilance unit has been functioning under the direct control of the Commissioner. During the year under review, no complaint of any nature was received by the unit, which leaves no room for delays in disposal of claims.

ACKNOWLEDGEMENTS

22. The Board places on record its appreciation for the assistance and co-operation received from the Ministry of Port, Shipping and Waterways, New Delhi, Directorate General of Shipping, Shipping Masters, Directors of Seamen's Employment Offices, District Collectors, Police Commissioners, Superintendents of Police, the Organizations of the Employers and Representatives of Seafarers'.

The Office of the Commissioner, Seamen's Provident Fund has continued to achieve considerable success in all directions, speedy payments and collections of Provident Fund moneys. The Board also places on record its appreciation for the dedicated services rendered by the Officers and Staff of the Organization at all levels during the year.



(Surendra Kumar)
Secretary,
Board of Trustees,
Seamen's Provident Fund,
Mumbai.

Appendix
(Para 4)

**TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES IN THE SEAMEN'S
PROVIDENT FUND ORGANIZATION**

Sr. No.	Group	Total Strength	Total No. of Employees in position	SC Employees	ST Employees	OBC Employees
1	2	3	4	5	6	7
1	'A'	2	1	-	-	-
2	'B' (non-Gazetted)	1	-	-	-	-
3	'C'	28	10	1	-	2
4	'D'	5	1	1	-	
Total		36	12	2	-	2

SUMMARY OF AGGREGATE INVESTMENTS AS ON 31.03.2020

Pattern of Investment	Face Value	Book Value
1. Central Govt. Securities	2,104,280,000.00	2,120,636,250.97
2. State Govt./State Guaranteed Securities	7,765,800,000.00	7,893,952,555.86
3. PSU Bonds	5,886,150,000.00	5,943,915,557.38
4. Special Deposits	3,419,353,488.64	3,419,353,488.64
5. Long Term TDR	133,658,000.00	133,658,000.00
6. Money Market Instruments	-	-
7. Mutual Fund	715,178,090.00	715,178,090.00
Grand Total	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85

Annexure – 2
(Para 8.2)

SUMMARY OF COLLECTION OF PROVIDENT FUND, DAMAGES AND CLAIMS PAID.

Year	Total Amount of PF Cont Rece.	Total amount of Damages Recovered	Claims paid (F.W./N.R.W)	Claims Percentage of P.F. Recd in Col, (2)
1.	2.	3.	4.	5.
	Rs.	Rs.	Rs.	
2015-2016	946,255,731.42	1,802,438.32	641,485,072.45	67.78%
2016-2017	1,074,720,795.87	3,214,302.00	616,174,065.58	57.33%
2017-2018	1,225,543,809.29	1,545,816.00	741,298,676.09	60.49 %
2018-2019	1,331,191,296.00	6,513,137.00	795,027,997.24	59.72%
2019-2020	1,441,953,570.48	5,497,652.39	700,009,551.48	48.55%

**Annexure -3
(Para 9)**

**POSITIONS OF INVESTMENTS AND INTEREST EARNED FROM THE TOTAL
INVESTMENTS DURING THE PAST 5 YEARS AND THE YEAR UNDER REVIEW.**

Year	Face Value	Book Value	Interest Earned
1.	2.	3.	4.
	Rs.	Rs.	Rs.
2015-2016	12,902,026,193.64	13,030,320,975.37	1,126,325,142.91
2016-2017	14,466,433,890.44	14,615,325,307.86	1,221,267,637.84
2017-2018	16,156,865,980.44	16,325,285,376.24	1,307,169,079.44
2018-2019	18,067,199,910.44	18,226,551,463.15	1,434,786,442.17 *
2019-2020	20,024,419,578.64	20,226,693,942.85	1,50,89,02,068.17 #

including accrued interest

* Excluding Last year accrued Interest

STATEMENT SHOWING YEAR WISE RECEIPTS OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIVE CHARGES AND EXPENDITURE FROM 2015 - 2016 TO 2019 - 2020

Year	Rate of Administrative charges on the total Contribution	Provident Fund Contribution (includes Voluntary /Ex-gratia and Pension annuity)	Administrative Charges on matching P.F. Contribution	Expenditure	Interest earned on investment of Administrative Charges
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
2015-2016	5%	946,255,731.42	29,511,492.75	29,359,043.83	4.459 705.99#
2016-2017	5%	1,074,720,795.87	35,544,997.14	29,617,356.00	4,993,063.10#
2017-2018	5%	1,225,543,809.29	42,067,303.50	37,299,318.42	62,79,917.63#
2018-2019	5%	1,331,191,296.00	46,132,678.55	37,497,904.07	60,58,403.69#
2019-2020	5%	1,441,953,570.48	50,999,572.73	41,675,057.43	65,71,648.58#

Includes accrued interest

**CLASSIFIED SUMMARY OF THE ASSETS OF THE SEAMEN'S
PROVIDENT FUND ORGANISATION FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2020**

	Class of Assets	Book value as on 31st March, 2020 as per cost price (depreciation disallowed)
1.	Seamen's Provident Fund Account :	Rs.
	1. Government of India Securities	2,120,636,250.97
	2. State Government / State Guaranteed Securities	7,893,952,555.86
	3. PSU bonds	5,943,915,557.38
	4. Special Deposits	3,419,353,488.64
	5. Long Term TDR	133,658,000.00
	6. Money Market Instruments	-
	7. Mutual Funds	7151,78,090.00
	TOTAL	20,226,693,942.85
2.	Cash at Bank	
I.	i) State Bank of India, Mumbai	--
	ii) Canara Bank (Syndicate bank)	1027,60,890.69
	iii) State Bank of India CAG Branch (Investment A/C)	1164,45,228.01
II.	Administration Account :	
	Amount invested	794,26,772.25
	Cast at Bank	
	State Bank of India.(Admin A/C) Mumbai	31,479.28
	Bank of India	9,922.44
	Canara Bank (Syndicate bank)	51,20,807.26
	Cash in hand	8,457.20
III.	Value of Assets :	
	1. Office Premises	88,030.51
	2. Furniture and Fixtures	198,501.51
	3. Office Equipment's	141,462.38
	4. Computer	32,609.97
	5. Legal Software	45,953.43
	6. Advance payment to CPWD for repair of office premises	81,00,000.00
	7. Advance payment to CPWD for Projector	3,69,338.00
	8. Provision for payment of CPWD for repair of office premises	2,947,117.00
	9. Advance payment to NICS I for development of new software	3,60,000.00
	10. Provision for purchase of Computer Hardware	4,93140.00
	11. Provision for payment to NICS I for development of new software	6,00,000.00
	12. Provision for payment to NICS I for development of New Software	9,90,000.00

* The value of assets is based on the cost of WDV of the Articles.

**Sd/
(Surendra Kumar),
Commissioner
Seamen's Provident Fund,
Mumbai**

नाविक भविष्य निधि



नाविक भविष्य निधि संगठन

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 की कार्यप्रणाली पर

चौवनवाँ वार्षिक लेखा-जोखा 2019-2020

कृपानिधि, 3री मंजिल, 9, वालचंद हिराचन्द मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई -400 001.

फैक्स : 022-22616202 दूरभाष : 22616925 / 22662044

केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं
(नॉन - प्रॉफिट संगठनों और समान संस्था)
के लिए
वित्तीय विवरण

विषय

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सीएजी).....	6 - 10
तुलन पत्र	11 - 12
आय और व्यय लेखा.....	13 - 14
उपरोक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ	15 - 41
प्राप्ति और भुगतान का विवरण	42 - 43

**नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा-जोखा पर
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग ऑडिट रिपोर्ट**

टिप्पणी	उत्तर
1. हमने नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई (एसपीएफओ) की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की संलग्न बैलेंस शीट का ऑडिट किया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की आय और व्यय के खाते को नाविक भविष्य निधि योजना के पैरा 48 के साथ अध्ययन किया है, नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में अधिसूचित किया गया था कि इसके वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।	जी, नोट कर लिया है।
2. इस अलग ऑडिट रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन के मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियां शामिल हैं। अधिनियमों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर ऑडिट अवलोकन, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट / कैग की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।	जी, नोट कर लिया है।
3. हमने सामान्य तौर पर भारत में अपनाए गए लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम योजना बनाएँ और युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करते हुए ऑडिट करें चाहे वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हो। ऑडिट में, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों और उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का भी मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।	जी, नोट कर लिया है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-	
i) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास में हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।	जी, नोट कर लिया है।
ii) इस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई बैलेंस शीट और इससे होने वाली आय और व्यय खातों को नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 47 के अंतर्गत न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।	जी, नोट कर लिया है।
iii) हमारी राय में नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा-47 के तहत आवश्यक बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित पुस्तकों के माध्यम से रख-रखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों का हमारी जांच से स्पष्ट होता है।	जी, नोट कर लिया है।
iv) हम यह भी उल्लेख करते हैं कि :	
ए बैलेंस शीट ए.1 चिन्हित / अक्षय निधि (अनुसूची -3) नाविक भविष्य निधि संगठन पेंशन एवं (उपदान निधि) ग्रेच्युटी फंड प्रारम्भिक शेष : रु. 11.93 करोड़	
बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च, 2020 को पेंशन निधि, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता रु. 19.13 करोड़ थी। चूंकि 31 मार्च, 2020 को फंड बैलेंस केवल रु. 11.13 करोड़ था जो रु. 8 करोड़ कम था। प्रबंधन ने कहा है कि हम घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह मुद्दा वर्ष 2012-2013 से अलग ऑडिट रिपोर्ट में उठाया जा रहा	इस मुद्दे को वर्ष 2012-13 से एसएआर में उठाया जा रहा है, उस समय नाविक भविष्य निधि संगठन के पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 1.67 करोड़ रुपये शेष थे। उस समय ना.भ.नि.सं. में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता की नियुक्ति नहीं हुई थी, इसके बाद मेसर्स

टिप्पणी	उत्तर																														
<p>है ।</p>	<p>ग्लोबल रिस्क कंसल्टेंट को वर्ष 2012-2013 में बीमांकिक मूल्यांकन कर्ता के रूप में नियुक्त किया गया । वित्त वर्ष 2015-2016 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-2016 में ना.भ.नि.सं. के अधिकारियों / कर्मचारियों को देयता राशि 16.60 करोड़ रुपये की तुलना में उपलब्ध फंड राशि 5.82 करोड़ रुपये थी । आगे यह उल्लेख किया जाता है कि वित्त वर्ष 2015-2016 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी खाते में संचित निधि की तुलना में 10.78 करोड़ रुपये की राशि कम थी ।</p> <p>इस संबंध में दिनांक 26.05.2017 के पत्र सं 511/0006/2017 के 11.23 करोड़ रु. की एक मुश्त अनुदान राशि के लिए मंत्रालय से संपर्क किया गया । अंतरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :</p> <table border="0"> <tr> <td>2012-2013</td> <td>-</td> <td>0.35 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2013-2014</td> <td>-</td> <td>0.35 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2014-2015</td> <td>-</td> <td>0.55 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2015-2016</td> <td>-</td> <td>1.10 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2016-2017</td> <td>-</td> <td>0.98 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2017-2018</td> <td>-</td> <td>1.00 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>-</td> <td>1.32 करोड़</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>-</td> <td>1.525 करोड़</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>-</td> <td>7.175 करोड़</td> </tr> </table> <p>वर्तमान में हमने रु. 7.125 करोड़ के अंतर को कम किया है । वित्त वर्ष 2019-2020 के अंत में कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में शेष राशि 11.13 करोड़ रुपये थी । पिछले कुछ वर्षों में ना.भ.नि.सं. मूल्यांकन राशि और शेष राशि के बीच के अंतर को कम करने में सफल रहा है ।</p> <p>सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पेंशन और ग्रेच्युटी फंड के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान किए जाएंगे । तदनुसार फंड को पेंशन और ग्रेच्युटी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा, जिसकी कुल देनदारी 19.13 करोड़ रुपये थी और धीरे-धीरे ना.भ.नि.सं. ने मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार फंड की आवश्यकता और पेंशन और ग्रेच्युटी खाते में शेष राशि के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया है । इसके अलावा, इस घाटे को कम करने के लिए आंतरिक लेखा परिक्षक मेसर्स गोयल पारुल एंड कंपनी से सलाह लेने का विनिश्चय किया और उन्होंने निम्नलिखित ढंग से अगले तीन वर्षों में बजट में प्रावधान कर फंड घाटे को कम करने का सुझाव दिया है :-</p> <table border="0"> <tr> <td>वित्त वर्ष</td> <td>2020-2021</td> <td>रु. 3.18 करोड़</td> </tr> </table>	2012-2013	-	0.35 करोड़	2013-2014	-	0.35 करोड़	2014-2015	-	0.55 करोड़	2015-2016	-	1.10 करोड़	2016-2017	-	0.98 करोड़	2017-2018	-	1.00 करोड़	2018-2019	-	1.32 करोड़	2019-2020	-	1.525 करोड़	कुल	-	7.175 करोड़	वित्त वर्ष	2020-2021	रु. 3.18 करोड़
2012-2013	-	0.35 करोड़																													
2013-2014	-	0.35 करोड़																													
2014-2015	-	0.55 करोड़																													
2015-2016	-	1.10 करोड़																													
2016-2017	-	0.98 करोड़																													
2017-2018	-	1.00 करोड़																													
2018-2019	-	1.32 करोड़																													
2019-2020	-	1.525 करोड़																													
कुल	-	7.175 करोड़																													
वित्त वर्ष	2020-2021	रु. 3.18 करोड़																													

टिप्पणी	उत्तर						
<p>ए.2 बी) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम - रु. 75.36 करोड़ (अनुसूची - 11) ऋण और अग्रिम - रु. 52.90 करोड़ अग्रिम और नगद या वस्तु के रूप में प्राप्त राशि अथवा वसूली योग्य राशि : पूँजी खाते में रु. 1.18 करोड़</p> <p>i) उपर्युक्त में, ना.भ.नि.सं. द्वारा अपने कार्यालय परिसर के नवीकरण कार्य के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के रूप में 1.14 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, चूंकि मरम्मत कार्य चालू है, यह व्यय पूंजीगत चालू कार्य व्यय (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था।</p> <p>ii) उपरोक्त में मेसर्स नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी.) के जरिए नए सॉफ्टवेयर के विकास के लिए ना.भ.नि.सं. द्वारा किए जा रहे व्यय रु. 0.04 करोड़ की राशि भी शामिल की गई है। जैसा कि सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रगति पर है इसलिए इस व्यय को भी पूंजीगत चालू कार्य व्यय (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था।</p> <p>उपरोक्त के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) को 1.18 करोड़ से कम बताया गया है।</p> <p>ए.3 चिन्हित अक्षय निधि से निवेश - रु. 2037.93 करोड़ (अनुसूची - 9) डिबेंचर तथा बॉन्ड : रु. 594.39 करोड़</p> <p>नाविक भविष्य निधि संगठन ने अवसरचना पट्टा उधार और वित्तीय सेवा लिमिटेड (आईएल एंड एफ एस) जैसी संस्थाओं में गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों (एन.एस.डी.) पर 18.30 करोड़ रुपये का निवेश किया है।</p> <p>राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष हुई कार्यवाही (11 फरवरी 2019) के अनुसार, संघ सरकार द्वारा नियुक्त मामलों के प्रबंधन के लिए गए निदेशक मंडल द्वारा दो आईएल एंड एफएस इकाइयां (IL & FS Limited और IL & FS Financial Services) को लाल श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं बड़े और सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को भी भुगतान नहीं कर पाती हैं।</p> <p>पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट (जून, 2021) के अनुसार दोनों आई.एल. एंड एफ.एस. संस्थाओं को अभी भी लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। फिर भी, नाविक भविष्य निधि संगठन ने खराब निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश में 18.30 करोड़ रुपये और अधिशेष को 18.30 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।</p>	<table border="1"> <tr> <td>वित्त वर्ष</td> <td>2021-2022</td> <td>रु. 3.00 करोड़</td> </tr> <tr> <td>वित्त वर्ष</td> <td>2022-2023</td> <td>रु. 2.00 करोड़</td> </tr> </table> <p>आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।</p> <p>नाविक भविष्य निधि संगठन ने अपने दिनांक 14.08.2020 के पत्र संख्या 855 II/120/2020-21, 29.12.2020 के पत्र संख्या 855 II/120/2020-21, 08.03.2021 के पत्र संख्या 855 II/120/2020-21, 31.03.2021 के पत्र संख्या 855 II/120/2020-21 और 17.06.2021 के पत्र संख्या 855 II/120/2021-22 के द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अपना काम समाप्त करने के लिए अनेक अनुस्मरण पत्र लिखे हैं।</p> <p>लॉक डाउन के कारण वो अपना काम समाप्त नहीं कर सके हैं।</p> <p>आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।</p> <p>सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एनआईसी के जरिये मेसर्स एसटीपीएल को सौंपा गया था परंतु मेसर्स एसटीपीएल ने डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं किया है, इसलिए एनआईसी को किए गए अग्रिम भुगतान को चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में शामिल कर लिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को परिसंपत्तियों की लागत के रूप में नहीं माना जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य पूर्ण होने पर और एनआईसी से समापन प्रमाणपत्र की पावती मिलने पर, अचल संपत्तियों के लेखा में शामिल किया जायगा।</p> <p>न्यासी मण्डल की 138 वीं बैठक में, नाविक भविष्य निधि संगठन ने यह निर्णय लिया कि डीएचएफएल और आईएल एंड एफएस में 122 करोड़ रुपये के एक्सपोजर में से खराब निवेश के लिए 68-70 करोड़ रुपये को बट्टे-खाते में डाल दिया जाए। सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में, आगे यह निर्णय लिया गया कि अगले 2-3 वित्तीय वर्षों में 68-70 करोड़ रुपये की राशि का समायोजन किया जाए।</p> <p>आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स गोयल पारुल एंड कंपनी ने अपने दिनांक 12.04.2021 के ई-मेल द्वारा सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीएचएफएल</p>	वित्त वर्ष	2021-2022	रु. 3.00 करोड़	वित्त वर्ष	2022-2023	रु. 2.00 करोड़
वित्त वर्ष	2021-2022	रु. 3.00 करोड़					
वित्त वर्ष	2022-2023	रु. 2.00 करोड़					

टिप्पणी	उत्तर
<p>ii) नाविक भविष्य निधि संगठन ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (डी.एच.एफ.एल.) के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों (एन.एस.डी.) में भी 107.36 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें से 3 करोड़ के निवेश को शुरुआती विकल्प के आधार पर वापस कर लिया गया है। न्यासी मण्डल की (मार्च 2021) की बैठक में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि डी.एच.एफ.एल. में निवेश के लगभग 43% मूलधन के भुगतान की परिकल्पना की गई और शेष मूलधन राशि की बट्टे-खाते में डाला जाएगा। फिर भी कोई राशि बट्टे-खाते में नहीं डाली गई है। इसके परिणाम स्वरूप 59.48 करोड़ रुपये अधिक और रु. 59.48 करोड़ के अधिशेष से अधिक बताया गया है।</p> <p>डीएचएफएल और आईएल एंड एफएस में किए गए खराब निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप रु. 77.78 करोड़ (रु. 18.30 करोड़ + रु. 59.48 करोड़) के निवेश को अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>बी. प्रबंधन के लिए पत्र</p> <p>जिन कमियों को अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन बिन्दुओं पर सुधारात्मक/उचित कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के जरिये नाविक भविष्य निधि संगठन की जानकारी में लाया गया है।</p> <p>(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपनी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दर्शाई गई बैलेंस शीट, आय - व्यय खाते और प्राप्तियों और भुगतान खाते लेखा बहियों के अनुसार हैं।</p> <p>(vi) हमारी राय और हमारी उचित जानकारी और दी गई सूचनाओं के आधार पर, हम ने उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों को साथ-साथ पढ़ा है और जो इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबन्ध - 1 में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन हैं। सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी गई है।</p> <p>(ए) जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है, यह 31 मार्च 2020 तक की नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई की बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा</p> <p>(बी) जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है यह आय और व्यय खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष से संबंधित है।</p> <p style="text-align: center;">भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से</p> <p style="text-align: center;">ह/- (पी. वी. हरीकृष्ण) प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-1, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 2 अगस्त, 2021</p>	<p>और आईएल एंड एफएस में किए गए निवेश के मूल्य में कमी लाने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 20 करोड़ रुपये का आंशिक प्रावधान करें।</p> <p>न्यासी मण्डल की 138 वीं बैठक में नाविक भविष्य निधि संगठन ने यह निर्णय लिया कि डीएचएफएल और आईएल एंड एफएस में 122 करोड़ रुपये के एक्सपोजर में से खराब निवेश के लिए 68-70 करोड़ रुपये को बट्टे-खाते में डाल दिया जाए। सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में, आगे यह निर्णय लिया गया कि अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 करोड़ रुपये की राशि का समायोजन किया जाए।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p>जी, नोट कर लिया है।</p> <p style="text-align: center;">ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p> <p>स्थान : मुंबई दिनांक : 17 अगस्त, 2021</p>

अनुबंध - 1

टिप्पणी	उत्तर
<p>1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता : वर्ष 2019-20 की आंतरिक लेखा-परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा कराई गई थी ।</p> <p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता : निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है :- वसूली / अंशदान की राशि का संग्रह किया गया है परंतु व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते में इंद्रराज करने के लिए लंबित पडी हुई हैं (जिनका अनुसूची 25 के क्रम संख्या 6 पर अइंद्रराज मदों के रूप में उल्लेख किया गया है ।) लंबित प्रविष्टियों बढ़ती जा रही हैं, 31 मार्च, 2020 को यह बढ़कर रु. 9.06 करोड़ की हो गई हैं ।</p> <p>3. अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : एक चार्टर्ड एकाउंट फर्म को प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य सौंपा गया था, उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि नाविक भविष्य निधि संगठन की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन आंतरिक ऑडिट के चौथी तिमाही के दौरान किया गया है । परंतु प्रमाण पत्र सत्यापन रिपोर्ट द्वारा समर्थित प्रमाण पत्र नहीं है । इसलिए लेखा परिक्षा में इसकी अधिकता / कमी का पता नहीं लगाया जा सकता है ।</p> <p>4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति : नाविक भविष्य निधि संगठन पर वस्तु-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन लागू नहीं होता है चूंकि इनके पास कोई वस्तु सूची नहीं है ।</p> <p>5. देन-दारियों के भुगतान में नियमितता : नाविक भविष्य निधि संगठन अपने सांविधिक भुगतानों को अविवादित रूप से नियमित तौर पर कर रहा है ।</p>	<p>शिपिंग कंपनियाँ भविष्य निधि का अंशदान जमा करते समय सदस्यों की गलत जानकारी भेज देते हैं । इसलिए सही जानकारी के अभाव में भ.नि. स्वतः ही अनपोस्टेड में स्थानांतरित हो जाता है । यह सूचित किया जाता है कि नाविक भविष्य निधि संगठन ने एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया है जिसमें शिपिंग कंपनियाँ भ. नि. अंशदान के साथ नाविकों का विवरण भी दर्ज करती हैं । सही डाटा के अभाव में सिस्टम उपयोगकर्ता को गलत खाते में राशि दर्ज करने कि अनुमति नहीं देगा । इसलिए भविष्य में अन-पोस्टेड की समस्या को कम किया जाएगा । चूंकि अन-पोस्टेड की समस्या पुराने सॉफ्टवेयर से संबन्धित है । अन-पोस्टेड की समस्या को टालने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है । शिपिंग कंपनियों से कहा गया है कि नाविक भविष्य निधि संगठन को चैक देने के साथ सीडीसी की झेरोक्स कॉपी भी उपलब्ध कराएं और शिपिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि अन-पोस्टेड कि समस्या को टालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते समय उनके जहाज पर तैनात नाविक की सही जानकारी उपलब्ध कराएं ।</p> <p>जी, आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया है ।</p> <p>महामारी की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए यह व्यवहार्य नहीं था कि वह हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय आएँ इसलिए आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स आर. सेठ एंड एसोसिएट से ई-मेल द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाण को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है ।</p> <p>लागू नहीं</p> <p>लागू नहीं</p>
<p>ह/- (वी.एस.के. नम्पूदिरि) उप निदेशक</p>	<p>ह/- (सुरेन्द्र कुमार) आयुक्त नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई</p>
<p>स्थान : मुंबई दिनांक : 2 अगस्त, 2021</p>	<p>स्थान : मुंबई दिनांक : 17 अगस्त, 2021</p>

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 का तुलन पत्र**

(राशि ₹)

संचय निधि / पूँजीगत निधि और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
संचय निधि /पूँजीगत निधि	1	109,022,095.48	92,554,661.25
आरक्षित और अधिशेष	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चिन्हित / स्थायी निधि	3	21,064,123,905.78	18,866,500,757.74
सुरक्षित ऋण और उधार	4	कुछ नहीं	कुछ नहीं
असुरक्षित ऋण और उधार	5	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	6	1,122,652.30	1,122,652.30
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	36,175,110.86	20,552,580.73
कुल		21,210,443,764.42	18,980,730,652.02

परिसंपत्तियाँ		2019-2020	2018-2019
नियत परिसंपत्तियाँ	8	506,557.80	623,826.42
निवेश - चिन्हित तथा स्थायी निधि से	9	20,379,289,807.01	18,366,814,349.97
निवेश - अन्य	10	77,026,772.25	72,065,909.06
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	753,620,627.36	541,226,566.57
फुटकर व्यय (लिखे न गए अथवा समायोजित न किए गए हद तक)		कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल		21,210,443,764.42	18,980,730,652.02

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक / सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

(राशि ₹)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
बिक्री / सेवा से आय	12	51,199,532.76	46,410,955.06
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शुल्क / अंशदान	14	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश से आय (विहित निधि के निवेश से आय)	15	343,833.89	4,031,207.79
अधिकार शुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्राप्त ब्याज	17	6,227,814.69	2,027,195.90
अन्य आय	18	364,351.00	96,570.57
पक्के माल और जारी कार्यों के स्टॉक में वृद्धि / कमी	19	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल(ए)		58,135,532.34	52,565,929.32

व्यय		2019-2020	2018-2019
स्थापना व्यय	20	36,912,282.00	32,844,808.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	4,634,415.00	4,448,799.62
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय			
परिपक्वता पूंजी पर नुकसान	22	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कर की अतिरिक्त सुविधा			
ब्याज व्यय / ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ	23	1,136.81	कुछ नहीं
मूल्य ह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के संबंध में कुल रकम)		120,264.30	204,296.45
कुल(बी)		41,668,098.11	37,497,904.07
व्यय के ऊपर आय की अधिकता के कारण शेष (ए-बी)		16,467,434.23	15,068,579.68
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण			
सामान्य आरक्षित से /में अन्तरण			
शेष राशि के अधिशेष / घाटे को संचय निधि / पूँजीगत निधि में अन्तरण			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 1- संचय निधि / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	92,554,661.25	-	77,486,081.57	-
जोड़ें : संचय निधि /पूँजीगत निधि में अंशदान		-		-
जोड़ें /(घटाएँ):आय एवं व्यय लेखा के आय/ (व्यय)के शेष का अन्तरण	16,467,434.23	-	15,068,579.68	-
वर्ष के अन्त में शेष राशि		109,022,095.48		92,554,661.25
अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष और अन्य निधि 1				
1. पूँजीगत आरक्षित : नाविक भविष्य निधि	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्वावलोकन आरक्षित :	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछले लेखा के अनुसार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती				
3. विशेष आरक्षित : कर्मचारी भविष्य निधि				
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-

4. सामान्य आरक्षित :				
आय और व्यय लेखा				
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
ब्याज उचंत खाता				
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल		-		-

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 3 चिह्नित / स्थायी निधि	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
ए) ज़ब्त निधि, नाविक भ.नि., कर्मचारी भ.नि. एवं कर्मचारी पेन्शन उपदान खाता				
i) नाविक भ.नि. मुख्य खाता का प्रारंभिक शेष	18,254,031,985.49		16,351,678,490.94	
जोड़ : वर्ष के दौरान	2,811,578,710.72		2,715,857,075.76	
घटाएँ : वर्ष के दौरान	724,857,187.70		813,503,581.21	
कुल :		20,340,753,508.51		18,254,031,985.49
ii) नाविक भ.नि. ज़बती खाता	45,351,665.62		41,267,176.49	
जोड़ : वर्ष के दौरान	5,323,589.86		11,397,699.41	
घटाएँ : वर्ष के दौरान	2,137,054.40		7,313,210.28	
कुल :		48,538,201.08		45,351,665.62
iii) नाविक भ.नि. कर्मचारी खाता	11,493,073.01		9,718,419.06	
जोड़ : वर्ष के दौरान	4,220,293.15		4,699,995.15	
घटाएँ : वर्ष के दौरान	5,723,720.43		2,925,341.20	
कुल :	-	9,989,645.73		11,493,073.01
iv) नाविक भ.नि. कर्मचारी पेन्शन उपदान	95,808,788.22		77,141,795.80	
जोड़ : वर्ष के दौरान	31,717,067.49		25,911,881.65	
घटाएँ : वर्ष के दौरान	16,247,724.31		7,244,889.23	
कुल		111,278,131.40		95,808,788.22
बी) निधियों का जोड़				
i) डोनेशन / अनुदान		कुछ नहीं		
ii) निधि के निवेश से प्राप्त आय		कुछ नहीं		
iii) अंशदान से अंतरण अन्य योग		कुछ नहीं		

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹)

अनुसूची 3 चिह्नित / स्थायी निधि	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
सी) ब्याज उंचत खाता				
प्रारंभिक जमा	459,815,245.40		449,894,961.68	
जोड : वर्ष के दौरान	1,930,736,961.27		1,854,509,443.67	
घटाएँ : वर्ष के दौरान	(1,836,987,787.61)	553,564,419.06	(1,844,589,159.95)	459,815,245.40
कुल : ए + बी + सी		21,064,123,905.78		18,866,500,757.74
डी) उपयुक्ता / निधियों के प्रयोजनों के प्रति व्यय				
i) पूंजीगत व्यय				
नियत				
अन्य				
कुल				
ii) राजस्व व्यय				
वेतन मजदूरी भत्ता आदि				
किराया				
अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल डी				
वर्ष समाप्त होने पर निवल शेष (ए + बी + सी + डी)		21,064,123,905.78		18,866,500,757.74

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
1) केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2) राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3) वित्तीय विवरण				
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक				
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
- देय प्रोद्भूत ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5) अन्य संस्था और एजेन्सीयाँ		कुछ नहीं		कुछ नहीं
6) डिबेंचर्स और बॉण्ड्स		कुछ नहीं		कुछ नहीं
7) अन्य (निर्दिष्ट)		कुछ नहीं		कुछ नहीं
कुल		कुछ नहीं		कुछ नहीं
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		कुछ नहीं		कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹)

अनुसूची 5, असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. वित्तीय संस्थाएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. बैंक :	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ए) अवधि ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7. अवधि जमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8. अन्य (निर्दिष्ट)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 6 , आस्थगित क्रेडिट देयताएँ	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) पूँजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ		
बी) अन्य : रिटर्न चैक खाता		
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	1,122,652.30	1,123,174.30
जोड़े : वर्ष के दौरान	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान भुगतान	-	522.00
कुल	1,122,652.30	1,122,652.30
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि ₹)

अनुसूची 7 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
ए) वर्तमान देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध लेनदार / विधि उदायित्व	20,319,681.91		13,710,363.31	
ए) माल के लिए				
बी) अन्य	2,929,678.00	23,249,359.91	6,739,821.42	20,450,184.73
3. प्राप्त अग्रिम	-		-	
4. प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
ए) सुरक्षित ऋण/उधार				
बी) असुरक्षित ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएँ				
ए) कालातीत				
बी) अन्य		-		-
6. अन्य वर्तमान देयताएँ	12,925,750.95	12,925,750.95	102,396.00	102,396.00
कुल (ए)		36,175,110.86		20,552,580.73
बी) प्रावधान				
1. कराधान के लिए	-		-	
2. उपदान	-		-	
3. निर्वतन अधिवर्षिता	-		-	
4. संचित अवकाश नगदीकरण	-		-	
5. व्यापार अनुज्ञाप्ती / दावा	-		-	
6. अन्य संदेहास्पद निवेश	-		-	
कुल (बी)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
कुल (ए + बी)		36,175,110.86		20,552,580.73

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 8 - नियत परिसंपत्तियाँ	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्य ह्रास	निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन		चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
ए) नियत परिसंपत्तियाँ							
1. भूमि							
ए) पूर्ण स्वामित्व							
बी) पट्टा भूमि							
2. भवन							
ए) पूर्ण स्वामित्वपर							
बी) पट्टे भूमिपर							
सी) स्वामित्व फ्लैट्स और परिसर	97,811.68			97,811.68	9,781.17	88,030.51	97,811.68
डी) भूमिपर सुपरस्ट्रक्चर (स्वामित्वपर नहीं)							-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण						-	-
4. वाहन							-
5. फर्निचर और फिक्चर्स	220,557.23			220,557.23	22,055.72	198,501.51	220,557.23
6. कार्यालय उपकरण	164,990.14	3,664.00	600.00	168,054.14	24,959.54	141,462.38	164,990.14

7. संगणक / संबंधित भाग	79,196.12	3,196.00	1,615.00	80,777.12	48,150.05	32,609.97	79,196.12
8. विद्युत संस्थापन							-
9. पुस्तकालय पुस्तके							-
10. नलकूप और जलपूर्ति							-
11. अन्य नियत परिसंपत्तियाँ							-
12. कानूनी सॉफ्टवेयर	61,271.25	-		61,271.25	15,317.82	45,953.43	61,271.25
चालू वर्ष / पिछला वर्ष का कुल							
कुल	623,826.42	6,860.00	2,215.00	628,471.42	120,264.30	506,557.80	623,826.42

* टिप्पणी : संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियमन 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना की गयी है तथा कटौती मूल्य ह्रास पद्धतिनुसार मूल्य ह्रास किया गया है । ऊपर दिये गये परिसंपत्तियाँ के मूल्य में किराया क्रय भी शामिल है ।

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 9- चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	5,544,138,603.77	5,547,958,546.23
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	7,896,152,555.86	6,798,518,410.17
3. शेअर्स (म्युचुअल फंड्स)	-	-
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	5,943,915,557.38	5,056,508,971.77
5. मुद्रा बाजार इन्स्ट्रुमेंट्स	-	595,864,700.00
6. आर्थिक सहायता और जॉइंट वेंचर	997,283,090.00	370,163,721.80
7. अन्य अवधी जमा तथा मुद्रा बाजार इन्स्ट्रुमेंट्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
घटाएँ : निवेश के मूल्य के ह्रास के लिए प्रावधान	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
कुल	20,379,289,807.01	18,366,814,349.97

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ
(राशि ₹)

अनुसूची 10 - अन्य निवेश	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	1,784,052.25	1,785,189.06
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (राज्य)	2,400,000.00	2,400,000.00
3. शेअर्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. आर्थिक सहायता और जॉइंट वेंचर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. अन्य अवधी जमा	75,242,720.00	70,280,720.00
घटाएँ : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
कुल	77,026,772.25	72,065,909.06

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
ए) वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
1) मालसूचियाँ :				
ए) भंडार और पुर्जे	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) खुले उपकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सी) स्टॉक इन ट्रेड				
तैयार माल	-	-	-	-
चालू कार्य	-	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं
कच्ची सामग्री	-	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं
2) विविध देनदार				
ए) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य (कर्मचारियों को अग्रिम)	कुछ नहीं	6,000.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3) हाथ में रोकड शेष (चैक / ड्राफ्ट और ब्याज का समावेश)	-	26,689.20	-	25,717.20
4) बैंक शेष	-		-	
ए) अनुसूचित बैंको के साथ	-		-	
चालू खातेपर		कुछ नहीं		कुछ नहीं
जमा खातेपर (अतिरिक्त राशि सहित)	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	-
बचत खातेपर		224,574,610.27		76,895,390.26
बी) गैर- अनुसूचित बैंको के साथ				
चालू खातेपर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जमा खातेपर		-		-
बचत खातेपर		कुछ नहीं		कुछ नहीं
4) कैश-इन-ट्रांजिट	-		-	
5) डाक बचत खाता	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
कुल (ए)		224,607,299.47		76,921,107.46

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	चालू वर्ष 2019-2020		पिछला वर्ष 2018-2019	
बी) ऋण अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ				
1) ऋण :				
ए) कर्मचारी	377,937.00		459,593.00	
बी) समान गतिविधियों में संलग्न दूसरी संस्थाओं से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) अन्य				
1) वसूली योग्य भविष्य निधि देयताएँ	1,740,804.38		2,265,660.38	
2) वसूली योग्य प्रशासनिक व्यय	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
3) विविध जमा (पक्षों की पेशगियाँ)	69,365.00	2,188,106.38	48,290.00	2,773,543.38
2) रोकड़ या वस्तु या मूल्य में वसूली योग पेशगियाँ				
ए) पूँजी खातेपर	11,776,455.00	11,776,455.00	12,007,117.00	12,007,117.00
बी) भुगतान	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	-
सी) अन्य (पूर्व भुगतान व्यय)	267.00	267.00	168.00	168.00
3) प्रोदभूत आय				
ए) चिन्हित/स्थायी निधि के निवेशपर	509,911,128.58	509,911,128.58	445,066,621.42	445,066,621.42
बी) अनुसूचित बैंकों से	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
सी) ऋण एवं पेशगियों पर	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
डी) अन्य (अप्राप्य आय शामिल)	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
4) वसूली योग्य दावा	5,137,370.93	5,137,370.93	4,458,009.31	4,458,009.31
कुल (बी)		529,013,327.89		464,305,459.11
कुल (ए + बी)		753,620,627.36		541,226,566.57

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि ₹)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवा से आय :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. बिक्री से आय		
ए) तैयार माल की बिक्री		
बी) कच्ची सामग्री की बिक्री		
सी) रद्दी माल की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
ए) श्रम तथा कार्यविधी प्रभार (शिपिंग कंपनियों से प्रशासकीय प्रभारों की प्राप्तियों से आय)	50,999,572.73	46,132,678.55
बी) व्यवसायिक / परामर्श सेवाएँ	201,609.35	281,127.42
सी) एजेन्सी कमीशन और ब्रोकरेज		
डी) अनुरक्षण सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति)		
ई) शिपिंग कंपनियों को वापस	-	(2,851.40)
एफ) संपत्ति विक्री	(1,649.32)	0.49
जी) अन्य	-	-
कुल	51,199,532.76	46,410,955.06

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
 नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹)**

अनुसूची 13 - अनुदान / आर्थिक सहायता :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
(अवसूली योग्य अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. राज्य सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. सरकारी एजेन्सियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. संस्था / कल्याण निकाय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹)

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. प्रवेश शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. वार्षिक शुल्क /अंशदान	-	-
3. सेमीनार / प्रोग्राम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का उल्लेख किया जाना है ।	कुल	कुछ नहीं

अनुसूची 15 - निवेश से आय (चिन्हित / स्थायी निधि से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज जो निधि को अंतरित किया गया)	चिन्हित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. ब्याज				
ए) सरकारी / राज्य प्रतिभूतियों पर	772,954,066.00	676,526,367.00	137,958.00	137,958.00
बी) अन्य बॉण्डस् / डिबेंचर्स	368,629,248.95	427,763,685.42		
सी) एस. डी. एस	271,837,358.21	263,318,323.00		
2. लाभांश				
ए) शेयर पर	-	-		
बी) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-		
3. किराया				
4. अ. अन्य अवधि जमा	6,012,426.04	55,732,377.00	41,318.00	3,702,083.00
ब. पूंजीगत लाभ	31,941,812.38	1,179,450.07	-	-
5. बचत बैंक ब्याज खाता	4,594,755.47	4,891,286.70	164,557.89	191,166.79
कुल	1,455,969,667.05	1,429,411,489.19	343,833.89	4,031,207.79
चिन्हित / स्थायी निधियों में अंतरण	1,455,969,667.05	1,429,411,489.19	343,833.89	4,031,207.79
टिप्पणी: चिन्हित निधि के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधि में जमा				

अनुसूची 16 - स्वामित्व एवं प्रकाशन से आय :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. स्वामित्व (रॉयल्टी) से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. प्रकाशन से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुसूची 17 - प्राप्त ब्याज :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. अवधि जमा पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य	6,227,814.69	2,027,195.90
2. बचत खाते पर		
ए) अनुसूचित बैंको के साथ		
बी) गैर - अनुसूचित बैंको के साथ		
सी) संस्थाओं के साथ		
डी) अन्य		
3. ऋण पर		
ए) कर्मचारी / स्टाफ		
बी) अन्य		
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल	6,227,814.69	2,027,195.90

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹)

अनुसूची 18- अन्य आय :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
1. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
ए) निजी परिसंपत्तियाँ		
बी) बिना लागत अथवा अनुदान से हासिल की गई संपत्ति		
2. निर्यात लाभ		
3. फुटकर सेवाओं के लिए शुल्क, ज्यादा प्रावधान वापस जमा किया	275,072.00	55,242.00
4. फुटकर आय	89,279.00	40,438.00
अभिमूल्यन	-	890.57
कुल	364,351.00	96,570.57

अनुसूची 19- तैयार माल एवं जारी कार्य के स्टॉक में वृद्धि / कमी :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) इतिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
बी) घटाएँ : आदिशेष स्टॉक		
-तैयार माल	-	-
-जारी कार्य	-	-
निवल वृद्धि / कमी (ए-बी)	-	-

वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹)

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) वेतन और मजदूरी	6,780,077.00	7,816,648.00
बी) भत्ते और बोनस	3,642,649.00	3,330,471.00
सी) भविष्य निधि का अंशदान	-	-
डी) अन्य निधियों को अंशदान (उपदान, अवकाश वेतन और पेंशन)	15,250,000.00	13,200,000.00
ई) कर्मचारी कल्याण व्यय (चिकित्सा बिलें, ट्यूशन फीस की भरपाई)	420,080.00	443,641.00
एफ) कर्मचारी सेवानिवृत्ती तथा सेवांत लाभों पर व्यय)	8,637,528.00	7,590,707.00
जी) अन्य अवकाश नगदीकरण	2,114,281.00	419,841.00
एच) मानदेय	67,667.00	43,500.00
कुल	36,912,282.00	32,844,808.00

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ (राशि ₹)**

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासकीय व्यय आदि :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) खरीद		
बी) श्रम और कार्यपद्धति व्यय		
सी) आवक गाड़ी भाडा और परिवहन किराया		
डी) विद्युत और शक्ती	23,946.00	92,080.00
ई) जल प्रभार		
एफ) बीमा	701.00	505.00
जी) मरम्मत एवं अनुरक्षण संगणक सॉफ्टवेअर के विकास सहित	4,561.00	217,944.00
एच) उत्पाद शुल्क		
आय) किराया दरें और कर	238,945.00	95,263.00
जे) वाहन चलाना और अनुरक्षण		
के) पोस्टेज, दूरभाष और संप्रेषण प्रभार	236,366.00	417,046.62
एल) मुद्रण और लेखन सामग्री	167,799.00	166,754.00
एम) यात्रा और सवारी व्यय	805,984.00	820,813.00
एन) सेमीनार / कार्यशालाओं पर व्यय		
ओ) अंशदान खर्च / समाचार पत्र एवं आवधिक किताबों पर खर्च	14,460.00	9,686.00
पी) शुल्क पर व्यय	5,664.00	1,967.00
क्यू) लेखा परीक्षकों का मानदेय	158,029.00	180,580.00
आर) अतिथि सत्कार पर खर्च	30.00	130.00
एस) व्यावसायिक प्रभार	183,295.00	72,640.00
टी) संदेहास्पद तथा अप्राप्य ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
यू) बट्टे खाते में अप्राप्त शेष	-	-
व्ही) रबड की मोहर	1,870.00	1,280.00

डब्ल्यू)माल भाड़ा		
एक्स) वितरण व्यय		
वाय) विज्ञापन और प्रकाशन		
झेड) i) अन्य फुटकर व्यय	286,024.00	179,832.00
ii) संविदात्मक कर्मचारी	2,247,297.00	2,174,544.00
iii) नॉन-रिकरिंग राजस्व		
iv) पेंशन अंशदान एवं छुट्टी वेतन	-	-
ए-1) डिजिटाइजेशन	222,504.00	-
बी-1) स्वच्छ भारत अभियान	35,960.00	17,385.00
सी-1) टीडीएस शुल्क	350.00	350.00
कुल	4,634,415.00	4,448,799.62

अनुसूची 22 - उपदान, आर्थिक सहायता पर व्यय :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) संस्थाओं / संगठनाओं को दिया गया उपदान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) संस्थाओं / संगठनाओं को दी गयी आर्थिक सहायता / परिपक्वता पूँजी पर नुकसान	-	-
सी) नियत परिसंपत्तियाँ बेचने पर नुकसान	1,649.32	-
कुल	1,649.32	-

अनुसूची 23 - ब्याज / ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ :	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
ए) नियत ऋण पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बी) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सी) अन्य - ऋण मुक्ति प्रतिभूतियाँ	1,136.81	कुछ नहीं
डी) एप्रीसिएशन	कुछ नहीं	890.57
कुल	1,136.81	890.57

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय और व्यय के हिस्से के रूप में अनुसूचियाँ**

अनुसूची 24 - अन्य प्रशासकीय व्यय आदि :

1. रुद्धिगत लेखापद्धति

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत कन्वेन्शन तथा अर्जित आधार पर तैयार किया जाता है। अर्जित में नौवहन कंपनियों से लिए जाने वाले प्रशासनिक व्यय तथा क्षति (दंडात्मक शुल्क) के भुगतान में विलंब होने को शामिल नहीं किया जाता है इन्हें वास्तव में इनके प्राप्त होने पर (नकद) ही दर्ज किया जाता है क्योंकि प्राप्त होने वाली धनराशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

2. राजस्व जानकारी

- i) भविष्य निधि अंशदान की गणना रोकड आधार पर की गयी है, हालाँकि जहाज पर नाविकों की नियुक्ति पर (अर्थात साइन ऑन होने पर) करार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन भविष्य निधि और अन्य अंशदान नाविकों की सेवा समाप्ति के बाद 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित किए जाते हैं। देय आधार पर भविष्य निधि अंशदानों की गणना करना व्यवहार्य नहीं है।
- ii) प्रशासकीय प्रभारों से उत्पन्न आय की भी रोकड आधार पर गणना की जाती है। कॉन्स्रवेटिज़्म के सिद्धांतों को देखते हुए प्रोद्भूत आधार पर प्रशासकीय प्रभारों से प्राप्त आय की गणना करना व्यवहार्य नहीं है और उचित भी नहीं है।
- iii) अंशदानों के विलंबित भुगतान पर दंडनीय प्रभारों (क्षतियाँ) से उत्पन्न आय की गणना भी रोकड आधार पर की गई है। क्षतियों के दावे समेकित रिपोर्ट्स प्रणाली से तैयार किए जाते हैं। शिपिंग कंपनियों से स्पष्टीकरण / सफाई प्राप्त होने पर क्षतियों को निश्चित रूप दिया जा सकता है। बहुत बार निधि रिटर्न में जानकारी भरने में गलती / चूक, यात्रा की लगातार अवधि, बकाया भुगतान आदि जैसे कारणों से दावे व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए लेखों का सही और उचित चित्र दर्शाने और गलत विवरण टालने के लिए क्षतियों की गणना रोकड आधार पर करना सही है।
- iv) बॉण्ड, बैंक डिपॉज़िट, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि में निवेश पर ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है और प्रयोज्यता के अनुसार रिटर्न / ब्याज की दर और निवेशित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को ध्यान में रखते हुए समयानुपात के आधार पर गणना की जाती है।

3. व्यय की जानकारी

- i) चालू वर्ष 2019-2020 से संबंधित परंतु उठाए गए / बाद में उठाए जानेवाले सभी अनिवार्य बकाया व्यय की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गयी है।
- ii) पिछले वर्ष / वर्षों से संबंधित व्यय को चालू वर्ष के व्यय से अलग किया गया है और एक अलग शीर्ष के अधीन दिखाया गया है।

4. परिसंपत्तियाँ

- i) वर्ष के दौरान प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को खरीद मूल्य के आधार पर बताया गया है, जिसमें प्राप्ति से संबंधित अनुषंगिक और सीधे व्यय और आवक भाड़ा, प्रभार और करों का समावेश है और मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार घटाया गया है।

- ii) नियत परिसंपत्तियों को 2019-2020 के लिखे गए मूल्य पर लिया गया है, जिसमें से आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार वर्ष दौरान मूल्यह्रास को घटाया है ।
- iii) वर्ष के दौरान कोई भी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है ।
- iv) कृपानिधि भवन तीसरी मंजिल, 9, वालचंद हीराचंद मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 पर स्थित ना.भ.नि. संगठन का कार्यालय परिसर है, जिसका क्षेत्र 3025 (वर्ग फीट) में हैं उसे 19 फरवरी 1970 में खरीदा गया । करार की शर्तों में अन्य तथ्यों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया कि ना.भ.नि. संगठन, मेसर्स मूलराज तुलसीदास एवं फटेन्शी तुलसीदास को रु. 1.82 लाख तथा मेसर्स कृपानिधि लि. को. रु. 3.93 लाख का भुगतान करेगा । ना.भ.नि. संगठन द्वारा कृपानिधि लि. को भुगतान किए गए रु. 3.93 लाख में से इसने रु. 100 प्रत्येक अनुसार 120 शेयर जारी किए और शेष राशि रु. 3.81 लाख को ना.भ.नि. संगठन से जमा के रूप में माना जाता है । आस्तियों का नाम कृपानिधि भवन में स्वामित्व प्लाट एवं इन्टायटी से संबंधित भूमि पर अधिसंरचना है ।

5. मूल्यह्रास

- i) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार और डब्ल्यूडीव्ही कार्यविधि के अनुसार मूल्यह्रास की गणना की गयी ।
- ii) वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जोड़ / कटौती के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यह्रास का विचार किया गया है ।

6. निवेश

- i) निवेश लागत पर मूल्यांकित है । लागत में ब्रोकरेज, ट्रान्सफर स्टैम्स जैसे प्राप्ति व्ययों का समावेश है ।
- ii) प्रतिभूतियों के मूल्यों में प्रासागिक तथा चक्रीय परिवर्तनों के लिए लेखा बुकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

7. सरकारी अनुदान / सहायता

चालु वर्ष में सरकारी अनुदान की प्राप्ति नहीं है ।

8. अन्य प्रगटीकरण

- i) नाविक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन कर्मचारियों के जब्त अंशदान को इसी योजना के पैरा 61(3) के अधीन जब्त खाते में अंतरित किया गया है । वर्ष 2019-2020 के दौरान नाविक भविष्य निधि संगठन योजना 1966 के पैरा 59(3) के अधीन रुपये 6,303.00 की राशि जप्त की गई है ।
- ii) नाविक भविष्य निधि के निवेशों पर प्राप्त ब्याज को ब्याज उचित खाते में जमा किया गया और वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर से ब्याज को इस खाते से नाविकों के भविष्य निधि खातों में विनियोजित किया गया है । वर्ष 2019-2020 के दौरान निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की व्यापारिक / प्रोद्भूत लेखाद्धति के अनुसार इस खाते में जमा किया गया । वर्ष 2019-2020 के दौरान प्राप्त ब्याज, जो पिछले वर्ष से संबंधित है, उसे अलग शीर्षक के अधीन दिखाया गया है ।

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

संगठन के खिलाफ दावे ऋण के रूप में नहीं पाये गये हैं ।

2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम का सामान्य कारोबार में उनकी उगाही पर प्राप्त होनेवाला कम से कम मूल्य तुलन पत्र में दिखायी गयी कुल राशि के समान है ।

3. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के प्रयोजन के लिए नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 की धारा 11 के अधीन, इस अधिनियम परिभाषा के अधीन यह निधि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि समझी जाएगी । इस प्रकार निधि की आय आयकर के लिए के लागू नहीं है । चूँकि नाविक निधि संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(25) के अनुसार आयकर से छूट है, कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं है ।

4. लेखा परीक्षकों को परिश्रमिक

लेखा परीक्षक / अंतरिक लेखा परीक्षक / सरकारी लेखा परीक्षक विभाग के रूप में	₹ 158,029.00
कराधान मामले	कुछ नहीं
प्रमाणन के लिए प्रबंधकीय सेवा	कुछ नहीं
अन्य	कुछ नहीं

5. जहाँ भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों का पुनःगुपिंग / पुनः क्रम / पुनः संगठित किया गया है : तथापि पिछले वर्ष के आँकड़े तुलनीय नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक प्राप्ति (रोकड) के आधारपर है और चालू वर्ष के आँकड़े लेखा पद्धति के सामान्य फॉर्मेट के अनुसार प्रोद्भूत आधारपर है ।

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

6. बिना इन्दराज मदों की आवृत्ति का विवरण

	प्रविष्टियों की संख्या	धनराशि
पिछली रिपोर्ट के अनुसार शेष	3850	56,760,489.78
जोड़े : वर्ष 2019 - 2020 के दौरान	3203	46,354,031.65
कुल योग	7053	103,114,521.43
घटाएं : वर्ष के दौरान निकासी (-)	740	12,466,023.00
शेष	6313	90,648,498.43

7. अन्य घोषणाएँ

- i) 30.03.2020 को नाविक भविष्य निधि के निवेशों का बुक मूल्य रु. 20,226,693,942.85 करोड़, अंकित मूल्य रु. 20,024,419,578.64 करोड़ और बाजार मूल्य रु. 20,301,470,016.65 है। (निकृष्ट निवेश सहित)
- ii) निम्नलिखित संदेहास्पद निवेशों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं क्योंकि देय राशि की वसूली के लिए किए गए प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	नाविक भविष्य निधि	
क)	प्रशासनिक खाता 16% उत्तर प्रदेश कताई मिल	₹ 2,400,000.00
ख)	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि 16% उत्तर प्रदेश कताई मिल	₹ 2,200,000.00
	कुल	₹ 4,600,000.00

- iii) गैर निष्पादित निवेशों के मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु कानूनी प्रयास जारी हैं।

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

- iv) ना. भ. नि. संगठन के 15 कर्मचारी सदस्यों एवं 30 पेन्शनरों के लिए 31.03.2019 तक की पेन्शन एवं ग्रेज्युटी का बीमांकन मूल्यांकन मेसर्स ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेंट द्वारा किया गया है। उनके बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार कुल देयताएं 17.76 करोड़ है और दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार वास्तविक शेष राशी 8.90 करोड़ है। आगे यह भी कहना है कि वर्ष 2019 में किए गए बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार पेंशन एवं ग्रेज्युटी लेखा में संचयित निधि के लिए रु. 8.86 करोड़ की राशी की कमी है। इस संबंध में निधि को संभालने / पूरा करने के लिए एक मुश्त मंजूरी पर विचार करने हेतु मंत्रालय को एक पत्र दिनांक 26.05.2017 को लिखा गया है। तथापि न्यासी मंडल के अनुमोदन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर प्रशासनिक लेखा से पेन्शन एवं ग्रेज्युटी निधि में रु. 1.53 करोड़ स्थानान्तरित किए गए हैं। 31.03.2020 का बीमांकन मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। पेन्शन एवं ग्रेज्युटी निधि में कुल संचय राशि रु. 11.13 करोड़ है।
- v) डीएचएफएल के नॉन-कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश किए गए 104.43 करोड़ रुपये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CARE) द्वारा इसे निकृष्ट निवेश मानते हुए इसे भी डाउन ग्रेड किया गया है।
- vi) आईएल एन्ड एफएस में निवेश किए गए 18.30 करोड़ रुपए को निकृष्ट निवेश के रूप में मानते हुए, इस निवेश पर वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान ब्याज प्राप्त नहीं हुई है। एनसीएलएटी के समक्ष (11 फरवरी, 2019) हुई कार्यवाही के अनुसार दो आईएल एन्ड एफएस कम्पनियों को (आईएल एन्ड एफएस लि. और आईएल एन्ड एफएस फाइनेंसियल सर्विस) संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड निदेशक द्वारा लाल कोटि (Red Category) में रखा गया है।

8. भारतीय राष्ट्रीय नाविक यूनियन (एन.यू.एस.आई) और नियोक्ताओं के बीच हुए द्विपक्षीय समझौता के अधीन विदेशी जहाजों के मालिकों द्वारा नाविकों का भविष्य निधि अंशदान प्राप्त हुआ है।

9. अनुसूचियाँ 1 से 25 अनुलग्नक के रूप में हैं और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय और 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र का एक अभिन्न हिस्सा है।

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

**वित्तीय विवरण (नॉन- प्रॉफिट संगठन)
नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान**

(राशि ₹)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019	भुगतान	चालू वर्ष 2019-2020	पिछला वर्ष 2018-2019
I) आदि शेष ए) हाथ में रोकड बी) बैंक शेष i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाते में	3,987.20	7,881.40	I) व्यय ए) स्थापना व्यय बी) प्रशासकीय व्यय सी) गैर-आवर्ती व्यय डी) आवर्ती	12,707,207.00 2,813,541.00 3,323,315.00 2,065,147.42	11,440,415.00 2,736,174.00 -- 2,548,942.20
II) प्राप्त अनुदान ए) भारत सरकार से बी) राज्य सरकार से सी) अन्य स्रोतों से (पूँजी और राजस्व विस्तार के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाना चाहिए)	76,895,390.26	80,832,698.31	II) विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए निधि से भुगतान कृपानिधी को किया गया भुगतान (कैच प्रोजेक्ट के लिए किए गए भुगतान के साथ फंड या प्रोजेक्ट का नाम भी दिखाया जाना चाहिए)	228,945.00	86,165.00
III) निवेश पर ब्याज ए) चिन्हित / स्थायी निधि बी) निजी निधि (अन्य - निवेश)	1,424,371,688.56	1,432,263,246.91	III) निवेश एवं जमा ए) चिन्हित / स्थायी निधि से बी) निजी निधि से (निवेश - अन्य) सी) खरीदी हुई प्रतिभूतियों पर व्याज का भुगतान	2,308,123,740.40 29,184,553.40	3,800,890,859.25 32,439,257.47
IV) प्राप्त ब्याज ए) बैंक जमा पर बी) ऋण, अग्रिम आदि			IV) नियत परिसंपत्तियों एवं पूँजीगत चालू कार्यों पर खर्च ए) नियत परिसंपत्तियों की खरीद बी) पूँजीगत जारी कार्यों पर व्यय		
			V) अधिशेष राशि / ऋण की वापसी ए) निधि प्रदान करने वालों को (नौवहन कम्पनीयाँ) बी) राज्य सरकार को सी) अन्य नौवहन प्रदाताओं की निधी (प्रशासकीय)	--	146,023.40 --

V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			VI) वित्त शुल्क (ब्याज)		
i) फुटकर आय	91,494.00	43,338.00	i) पूंजी हानि	273,478.98	4,168,984.70
ii) आग्रिमों की वसूली	155,306.00	143,675.00	ii) बैंक शुल्क	41,125.02	32,835.50
iii) अन्य प्राप्ति		1,350.00	VII) अन्य भुगतान		
iv) लौटे चेकों का खाता			i) अंतिम निकासी	677,847,795.48	761,630,097.24
v) प्रशासकीय प्रभार	50,999,572.73	46,132,678.55	ii) अप्रतिदेय निकासियाँ	22,161,756.00	33,397,900.00
vi) क्षतियाँ (प्रशा.)	201,609.35	281,127.42	iii) अग्रिम का भुगतान	79,650.00	450,500.00
vii) जी.पी.ओ. से प्राप्त चेक			iv) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भुगतान	7,262,922.00	1,597,322.00
VI) उधार राशि			v) कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन तथा उपदान निधि से निकासी	3,924,118.00	1,090,029.00
VII) अन्य प्राप्तियाँ			vi) वापस चेक भुगतान	-	522.00
i) शिपींग कंपनियों से अंशदान	1,441,953,570.48	1,331,191,296.00	vii) पेंशन तथा उपदान का भुगतान	15,250,000.00	13,200,000.00
ii) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1,437,500.00	2,264,910.00	viii) पेंशनरों का भुगतान	8,568,887.00	10,167,170.00
iii) कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम की वापसी	291,150.00	131,280.00	ix) संविभाग प्रबंधक का भुगतान	440,204.00	380,479.07
iv) मुक्त किया गया निवेश	256,279,950.87	1,838,850,534.63	x) शिक्रे की बकाया पेंशन का भुगतान	-	11,950.00
v) वर्ष के दौरान जब्त राशी	6,303.00	40,230.00	xi) बकाया भुगतान - एनपीएस	99,696.00	
vi) टीडीएस की वापसी (ना.भ.नि. में)	529,102.00		xii) सुरक्षा जमा भुगतान - फर्स्ट बेस सोल्यूशन	2,700.00	
vii) बकाया : एनपीएस देय	15,270.00	99,696.00	xiii) धनवापसी - बयाना राशि	100,000.00	
viii) बकाया : एफडब्ल्यू + एनआरडब्ल्यू	12,445,480.95		xiv) बेस्ट में जमा	21,075.00	
ix) ईएमडी - निविदायाँ	565,000.00		VIII) इति शेष		
x) अन्य - कर्मचारी पेंशन एवं उपदान	15,421,084.00	13,338,474.00	ए) हाथ में रोकड		
xi) ना.भ.नि. क्षतियाँ / हर्जाना	5,497,652.39	6,513,137.00	बी) बैंक शेष	8,457.20	3,987.20
xii) आर. सी. एच.	-		सी) चालू खाते में	224,574,610.27	76,895,390.26
पूंजीगत लाभ	31,941,812.38	1,179,450.07	डी) जमा खाते में		
कुल	3,319,102,924.17	4,753,315,003.29	कुल	3,319,102,924.17	4,753,315,003.29

ह/-
अनुभाग / प्रभारी

ह/-
कार्यालय अधीक्षक

ह/-
सहा. प्रशासनिक / लेखाधिकारी

ह/-
प्रशासनिक सह लेखाधिकारी

ह/-
आयुक्त

NAVIK BHAVISHYA NIDHI



**SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANISATION
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS)**

**54th ANNUAL ACCOUNT
FOR YEAR 2019 - 2020**

ON THE WORKING OF SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966

**OFFICE OF
THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER
KRUPANIDHI, 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG, BALLARD ESTATE, MUMBAI - 400 001.**

**FAX - 022-2261 62 02 • PHONE - 022-22616925, 022-22662044
Web site :www.spfo.gov.in • E-mail Address : spfo.mum@gov.in**

FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE
CENTRAL AUTONOMOUS BODIES
(NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND SIMILAR
INSTITUTIONS)

CONTENTS

	PAGES
SEPARATE AUDIT REPORT OF (CAG)	6-9
BALANCE SHEET	10
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	11
SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS	12-31
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS	32

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE INDIA ON THE ACCOUNTS
OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020.**

Comments	Reply
<p>1. We have audited the attached Balance Sheet of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai (SPFO) as at 31 March 2020 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Para 48 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 notified by the Government of India in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966. These Financial Statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.</p>	Noted
<p>2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.</p>	Noted
<p>3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.</p>	Noted
<p>4. Based on our audit, we report that:</p>	
<p>(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;</p>	Noted
<p>(ii) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966;</p>	Noted
<p>(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Seamen's Provident Fund Organisation as required under Para 47 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 in so far as it appears from our examination of such books;</p>	Noted
<p>(iv) We further report that:</p>	
<p>A. Balance Sheet A.1. Earmarked/Endowment funds (Schedule 3) A.1.1. SPF Pension & Gratuity Fund, Opening Balance- ₹ 11.13 crore</p>	
<p>As per the actuarial valuation report, the liability towards Pension Fund, Gratuity and Leave Encashment as on 31 March 2020 was ₹ 19.13 crore. Since the fund balance as on 31 March 2020 was ₹ 11.13 crore only, there was a deficit of Rs. 8 crore in the fund.</p>	This issue was raised in SAR 2012-13 at the time of 1.67 crores was balance in the SPF Pension & Gratuity Fund. At that time, Actuarial Valuer was not engaged in SPFO. Thereafter, M/s. Global Risk Consultant appointed as Actuarial Valuer in 2016-17.
<p>Management has stated that they are making efforts to recoup the deficit. The issue is being raised in the Separate Audit Reports since 2012-13.</p>	As per Actuarial Valuation report for the F.Y. 2015-16, total liability of 16.60 crores towards Officers and Staff Members of the SPFO against the actual balance available in

Comments	Reply																											
<p>A.2 Current Assets, Loans & Advances- ₹ 75.36 crore (Schedule 11) B. Loans and Advances- ₹ 52.90 crore Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received: on capital account- ₹ 1.18 crore</p> <p>(i) The above includes an amount of ₹ 1.14 crore being the capital expenditure incurred by SPFO towards renovation of their office premises. Since the repair work in progress, the expenditure should have been accounted under Capital work in Progress (CWIP).</p> <p>(ii) The above further includes an amount of ₹ 0.04 crore being the expenditure incurred by Organization towards development of new software through M/s. National Informatics Centre (NIC). As the software development work is in progress the expenditure should have been accounted under CWIP.</p>	<p>the fund amounted to 5.82 crores for the F.Y. 2015-16. Further it is submitted that 10.78 crores deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per Actuarial Valuation report up to the F.Y. 2015-16.</p> <p>In this context, approached to the Ministry's vide letter no. 511/0006/2017 dated 26.05.2017 for one time grant of 11.23 crores.</p> <p>The details of transferred Fund are as under :-</p> <table border="0"> <tr><td>2012-13</td><td>-</td><td>0.35 crores</td></tr> <tr><td>2013-14</td><td>-</td><td>0.35 crores</td></tr> <tr><td>2014-15</td><td>-</td><td>0.55 crores</td></tr> <tr><td>2015-16</td><td>-</td><td>1.10 crores</td></tr> <tr><td>2016-17</td><td>-</td><td>0.98 crores</td></tr> <tr><td>2017-18</td><td>-</td><td>1.00 crore</td></tr> <tr><td>2018-19</td><td>-</td><td>1.32 crores</td></tr> <tr><td>2019-20</td><td>-</td><td>1.525 crores</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>7.175 crores</td></tr> </table> <p>At present, we have reduced the gap of 7.18 crores.</p> <p>At the end of the financial year 2019-20 balance in the Staff Pension and Gratuity was 11.13 crore. Over the years SPFO has succeeded to drastically reduce the gap between valuation amount and Balance in the Fund. Remedial measures have been taken and it has been decided to make provision in the yearly budget for the Pension and Gratuity Fund. Accordingly, the Fund was transferred to Pension & Gratuity Account the total liability of Rs. 19.13 crores and gradually SPFO endeavoured to reduce the gap between requirement of the fund as per Valuation Report and balance in Pension & Gratuity Account.</p> <p>Beside this, it has been decided to obtain the advice from the Internal Auditor M/s Goyal Parul & Co. how to cope-up with the deficit and they have suggested to recoup the deficit of in fund by making provision in the budget in next 3 years in the following manner:- FY-2020-21- 3.18 crores FY-2021-22- 3.00 crores FY-2022-23- 2.00 crores</p> <p>Noted for Compliance in future.</p> <p>Several reminders sent to the CPWD for Completion of the pending work vide SPFO's Letter ref. no. 855 II/ 120/ 2020-21 dated 14th August, 2020, 855II/ 474 / 2020-21 dated 29th December, 2020, 855 II/ 337/2020-21 dated 8th March, 2021, 855II / 38/2019 dated 31st March, 2021 and letter no. 855-II/20/2021-22 dated 17th June, 2021 to CPWD.</p> <p>Due to lockdown, they could not complete their work.</p> <p>Noted for Compliance in future</p> <p>The Software development work has been assigned through NIC to M/s. STPL and development work is not completed, hence the advance payment to NIC is accounted in Current assets, Loans and advances. Advance payment towards development of</p>	2012-13	-	0.35 crores	2013-14	-	0.35 crores	2014-15	-	0.55 crores	2015-16	-	1.10 crores	2016-17	-	0.98 crores	2017-18	-	1.00 crore	2018-19	-	1.32 crores	2019-20	-	1.525 crores	Total		7.175 crores
2012-13	-	0.35 crores																										
2013-14	-	0.35 crores																										
2014-15	-	0.55 crores																										
2015-16	-	1.10 crores																										
2016-17	-	0.98 crores																										
2017-18	-	1.00 crore																										
2018-19	-	1.32 crores																										
2019-20	-	1.525 crores																										
Total		7.175 crores																										

Comments	Reply
<p>The above has resulted in Overstatement of Current Assets, Loans & Advances and understatement of Fixed Assets (CWIP) by ₹ 1.18 crore.</p> <p>A.3 Investment from Earmarked/ Endowment Funds - ₹ 2037.93 crore (Schedule 9) Debentures and Bonds: ₹ 594.39 crore</p> <p>(i) SPFO has invested ₹ 18.30 crore in Non-convertible Debentures (NCDs) of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL&FS) entities.</p> <p>As per proceedings (11 February 2019) before National Company Law Appellate Tribunal, two IL&FS entities (IL&FS Limited and IL&FS financial services) have been placed under the 'Red Category' by the new Board of Directors appointed by the Union Government to manage the affairs of the IL & FS Group of companies, which means that such entities cannot make their payment obligations even towards senior secured financial creditors.</p> <p>As per the latest status report (June 2021) of the Portfolio Management Services, both the IL&FS entities are still under Red Category. However, the SPFO has not made provision for bad investments. This has resulted in overstatement of Investment by ₹18.30 crore and overstatement of surplus by ₹18.30 crore.</p> <p>(ii) SPFO had also invested ₹ 107.36 crore in Non-Convertible Debentures (NCDs) of Dewan Housing Finance Corporation Ltd. (DHFL) out of which ₹ 3 crore was redeemed utilizing the early option. It was deliberated in the meeting of Board of Trustees (March 2021) that the resolution Plan of DHFL envisages payment of around 43% of the principle and the balance outstanding principle exposure will have to be written off. However, no amount was written off or provided. This has resulted in overstatement by ₹ 59.48 crore and overstatement of surplus by ₹ 59.48 crore.</p> <p>Non-provision for bad investments in DHFL and IL&FS resulted in overstatement of Surplus and Investments by ₹ 77.78 crore (₹ 18.30 crore + ₹ 59.48 crore).</p> <p>B. Management Letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Seamen's Provident Fund Organisation through a Management separately for remedial/corrective action.</p> <p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report do give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai as at 31 March 2020; and</p> <p>(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.</p> <p>For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India.</p> <p>Sd/- (P.V. Hari Krishna) Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai</p> <p>Place : Mumbai, Date : 2 August 2021</p>	<p>software may not be treated as cost of the Assets. On completion of the software work and on receipt of completion certificate from NIC, the cost will be incorporated in the Fixed Assets Account.</p> <p>In the 138th Meeting Board of Trustees, SPFO, it has decided that an amount of 68 – 70 crores required to be write off towards bad investment out of exposure of 122 crores in DHFL and IL & FS. As a remedial measures, it has been further decided that amount of 68 - 70 crores be set off in the next 2 – 3 financial years. Internal Auditor M/s. GoyalParul& Co. suggested vide their email dated 12th April,2021 wherein they stated that make the partial provision for diminution in the value of Investments made in DHFL and IL&FS in the F.Y. 2020-21 provision of 20 crores for such diminished value of investment.</p> <p>In the 138th Meeting Board of Trustees, SPFO, it has decided that an amount of 68 – 70 crores required to be write off towards bad investment out of exposure of 122 crores in DHFL and IL & FS. As a remedial measures, it has been further decided that amount of 30 crores be set off in the next F.Y. 2020-21.</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>Noted</p> <p>(Surendra Kumar) Commissioner, Seamen's Provident Fund, Mumbai</p> <p>Place :- Mumbai Date :- 17 August, 2021</p>

ANNEXURE - 1

Comments	Reply
<p>1. Adequacy of the Internal Audit System Internal Audit for the year 2019-20 was carried out by a firm of Chartered Accountants.</p> <p>2. Adequacy of Internal Control System The internal control system needs strengthening in view of the following: The amount of recoveries/subscriptions collected, but pending posting to individual Provident Fund Accounts (termed as un-posted items and disclosed at Sr. No. 6 of Schedule 25) was getting accumulated and stood at 9.06 crore as on 31 March 2020.</p> <p>3. System of Physical Verification of Fixed Assets A firm of Chartered Accountants who were assigned with the work of physical verification, stated in their letter that the asset of SPFO have been verified during the fourth quarter of internal audit. But the certificate is not supported by the verification Report and hence the Excess/shortages cannot be ascertained in audit.</p> <p>4. System of Physical Verification of Inventory Physical verification of inventory is not applicable to SPFO as it has no inventory.</p> <p>5. Regularity in payment of statutory dues SPFO was regular in payment of undisputed statutory dues.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (VSK Nampoodiry) Deputy Director</p> <p>Place: Mumbai, Date: 2 August 2021</p>	<p>Noted</p> <p>Shipping companies while depositing PF are remitting wrong details of seafarer members. Hence, the PF automatically transferred to un-posted due to non-availability of correct information. It is informed that SPFO has commissioned new software system wherein the shipping companies are entering the seafarers data along with PF amount. In absence of wrong data the system will not allow to the user to post the amount in wrong account. Hence, the un-posted will be reduced in future. As the un-posted is pertaining to old data, remedial measures are taken to clear un-posted. Shipping companies are asked to send CDC xerox while depositing cheques with SPFO and it is mandatory for the shipping companies to provide correct information pertaining to the un-posted items of the seafarers engaged for their vessel while obtaining NOC.</p> <p>Noted for Future Compliance.</p> <p>During the pandemic period, it is not feasible for Internal Auditor to visit this office for signature, it is therefore requested to consider the Certificate sent by email. Hence Physical Verification certificate obtained by email from the Internal Auditor M/s. R.Seth& Associates.</p> <p>N.A.</p> <p>N.A.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- (Surendra Kumar) Commissioner Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai</p> <p>Place: Mumbai, Date: 17 August, 2021</p>

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

(AMOUNT - ₹)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
CORPUS / CAPITAL FUND	1	109,022,095.48	92,554,661.25
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	21,064,123,905.78	18,866,500,757.74
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	1,122,652.30	1,122,652.30
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	36,175,110.86	20,552,580.73
TOTAL		21,210,443,764.42	18,980,730,652.02
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	506,557.80	623,826.42
INVESTMENTS FORM - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	20,379,289,807.01	18,366,814,349.97
INVESTMENTS - OTHERS	10	77,026,772.25	72,065,909.06
CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES ETC.	11	753,620,627.36	541,226,566.57
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		21,210,443,764.42	18,980,730,652.02

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(AMOUNT - ₹)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		2019-2020	2018-2019
INCOME			
Income From Sales / Services	12	51,199,532.76	46,410,955.06
Grants / Subsidies	13	nil	nil
Fees / Subscriptions	14	nil	nil
Income from Investments (Income on Invest from Earmarked to Funds)	15	343,833.89	4,031,207.79
Income from Royalty, Publication etc.	16	nil	nil
Interest Earned Accrued Int Adjustment to Prior Period	17	6,227,814.69	2,027,195.90
Other Income (+) Expenses Written Back	18	364,351.00	96,570.57
Increase (Decrease) in Stock of Finished Goods and Works-in-progress	19	nil	nil
TOTAL (A)		58,135,532.34	52,565,929.32
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	36,912,282.00	32,844,808.00
Other Administrative Expenses etc.	21	4,634,415.00	4,448,799.62
Expenditure on Grants Subsidies etc.			
Capital Loss on Maturity of Security	22	nil	nil
Loss on Sale of Fixed Assets			
Amortisation on Securities	23	1,136.81	
Depreciation (Net Total at the Year End)		120,264.30	204,296.45
Corresponding to Schedule 8			
TOTAL (B)		41,668,098.11	37,497,904.07
Balance being Excess of Income Over Exp. (A-B)		16,467,434.23	15,068,579.68
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer To / From General Reserve			
Balance being Surplus/Deficit carried to Corpus /Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULES 1 - CORPUS / CAPITAL FUND:	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
Balance as at the beginning of the year	92,554,661.25		77,486,081.57	
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	NIL		NIL	
Add/(Deduct) : Balance of Income / (Expenditure)	16,467,434.23		15,068,579.68	
Transferred from the Income & Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR - END		109,022,095.48		92,554,661.25
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS AND OTHER FUNDS				
1. Capital Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
2. Revaluation Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
3. Special Reserves:				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
4. General Reserves				
Income & Expenditure Account	NIL		NIL	
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
5 Interest Suspense Account				
As Per Last Account	NIL		NIL	
Addition During The Year	NIL		NIL	
Less: Deduction During The Year	NIL		NIL	
Total		NIL		NIL

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS (Forfeiture Fund + SPF + Staff GPF + Pension & Gratuity)	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
A) Opening Balance of Funds				
i) SPF Main Account Opening Balance	18,254,031,985.49		16,351,678,490.94	
Add : Addition During the Year	2,811,578,710.72		2,715,857,075.76	
Less : Deduction During the Year	724,857,187.70		813,503,581.21	
Total		20,340,753,508.51		18,254,031,985.49
ii) SPFO Forfeiture Account, Opening Balance	45,351,665.62		41,267,176.49	
Add : Addition During the Year	5,323,589.86		11,397,699.41	
Less : Deduction During the Year	2,137,054.40		7,313,210.28	
Total :		48,538,201.08		45,351,665.62
iii) SPF Staff GPF Account , Opening Balance	11,493,073.01		9,718,419.06	
Add : Addition During the Year	4,220,293.15		4,699,995.15	
Less : Deduction During the Year	5,723,720.43		2,925,341.20	
Total :	-	9,989,645.73		11,493,073.01
iv) SPF Pension & Gratuity Fund, Opening Balance	95,808,788.22		77,141,795.80	
Add: Addition During the Year	31,717,067.49		25,911,881.65	
Less/Deduction : During the Year	16,247,724.31		7,244,889.23	
Total :		111,278,131.40		95,808,788.22
B) Additions to the Funds:				
i) Donations / Grants				
ii) Income from Investments Made on Accounts of Funds				
iii) Other Additions (Specify Nature) Transfer from cont.				
C) Interest Suspense Account				
Opening Balance				
As per last Account	459,815,245.40		449,894,961.68	
Addition During the Year	1,930,736,961.27		1,854,509,443.67	
Less: Deduction During the Year	(1,836,987,787.61)		(1,844,589,159.95)	
Total :		553,564,419.06		459,815,245.40
Total (A + B+C)		21,064,123,905.78		18,866,500,757.74
D) Utilization / Expenditure Towards Objectives of Funds				
i) Capital Expenditure Paid to SWFS/RBS				
Fixed				
Others Adjust of Accrued Int to Prior Period				
Total				
ii) Revenue Expenditure				
Salaries, Wages, Allowances Etc.				
Rent				
Other Administrative Expenses				
Total				
TOTAL (D)				
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (A+B+C-D)		21,064,123,905.78		18,866,500,757.74

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:				
1. Central Government	Nil	Nil	Nil	Nil
2. State Governments	Nil	Nil	Nil	Nil
3. Financial Statements				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Banks				
A) Terms Loans	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil	Nil	Nil
Interest Accrued and Due	Nil	Nil	Nil	Nil
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Other (Specify)				
Total	Nil	Nil	Nil	Nil
Note : Amounts due within one year				

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government	Nil	Nil
2. State Governments (Specify)	Nil	Nil
3. Financial Institutions	Nil	Nil
4. Bank:	Nil	Nil
A) Terms Loans	Nil	Nil
B) Other Loans (Specify)	Nil	Nil
5. Other Institutions and Agencies	Nil	Nil
6. Debentures and Bonds	Nil	Nil
7. Fixed Deposits	Nil	Nil
8. Others (specify)	Nil	Nil
TOTAL	Nil	Nil
Note : Amounts due within one year		
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
A) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital		
Equipment and other Assets		
B) Others: Returned Cheque		
As per last Balance Sheet	1,122,652.30	1,123,174.30
Additions during the year	-	-
Less: Payment during the year		522.00
TOTAL	1,122,652.30	1,122,652.30
Note : Amounts due within one year or more		

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
A) Current Liabilities				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors	20,319,681.91		13,710,363.31	
A) For Goods				
B) Others	2,929,678.00	23,249,359.91	6,739,821.42	20,450,184.73
3. Advances Received	-		-	
4. Interest Accrued but not due on				
A) Secured Loans / Borrowings				
B) Unsecured Loans / Borrowings				
5. Statutory Liabilities				
A) Overdue				
B) Others		-		-
6. Others Current Liabilities	12,925,750.95	12,925,750.95	102,396.00	102,396.00
TOTAL (A)		36,175,110.86		20,552,580.73
B) Provisions				
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties / Claims				
6. Others (Specify) Doubtful Investment				
TOTAL (B)				
TOTAL (A + B)		36,175,110.86		20,552,580.73

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION	NET BLOCK		
	DESCRIPTION	Cost valuation as at beginning of the year	Addition during the year	Deduction during the year		cost valuation at the year end	For the Current Year End	As at Current Year End
1. Land								
A) Freehold								
B) Leasehold								
2. Building								
A) On Freehold Land								
B) On Leasehold Land								
C) Ownership Flats/premises	97,811.68			97,811.68	9,781.17	88,030.51	97,811.68	
D) Superstructures on Land not belonging to the entity								
3. Plant, Machinery & Equipment								
4. Vehicles								-
5. Furniture & Fixtures	220,557.23			220,557.23	22,055.72	198,501.51	220,557.23	
6. Office Equipments	164,990.14	3,664.00	600.00	168,054.14	24,959.54	141,462.38	164,990.14	
7. Computer / Peripheral	79,196.12	3,196.00	1,615.00	80,777.12	48,150.05	32,609.97	79,196.12	
8. Electric Installations								
9. Library Books								
10. Tubewells and W Supply								
11. Other Fixed Assets								
12. Legal Software	61,271.25	-		61,271.25	15,317.82	45,953.43	61,271.25	
TOTAL OF CURRENT YEAR								
PREVIOUS YEAR								
TOTAL	623,826.42	6,860.00	2,215.00	628,471.42	120,264.30	506,557.80	623,826.42	

Note: The method of providing depreciation is according to income Tax Act, 1961 at the rate specified for relevant financial year and depreciation is calculated on WDV method

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. In Government Securities (SPF Main+Forfeiture+SPF Staff GPF +Staff Pension)	5,544,138,603.77	5,547,958,546.23
2. Other Approved Securities (STATE)	7,896,152,555.86	6,798,518,410.17
3. Shares (Mutual Fund)		
4. Debentures and Bonds	5,943,915,557.38	5,056,508,971.77
5. Money Market / Instruments		595,864,700.00
6. Subsidiaries and Joint Ventures		
7. Others (to be Specified) (TDR)	997,283,090.00	370,163,721.80
TOTAL		-
Less: Provisions for Diminution in Value of Invest. (Provision)	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
Total	20,379,289,807.01	18,366,814,349.97
Schedule 10 - Investments Others	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. In Government Securities	1,784,052.25	1,785,189.06
2. Other Approved Securities (STATE)	2,400,000.00	2,400,000.00
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be Specified) (TDR) & Money Market Instrument	75,242,720.00	70,280,720.00
Less: Provisions for Diminution in Value of Invest. (Provision)	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
Total	77,026,772.25	72,065,909.06

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
A) Current Assets:				
1. Inventories:				
A) Stores and Spares	Nil		Nil	Nil
B) Loose Trade	Nil		Nil	Nil
C) Stock in Trade				
Finished Goods				
Work in Progress				
Raw Materials				
2. Sundry Debtors:				
A) Debts Outstanding for a Period Exceeding Six Months	Nil		Nil	Nil
B) Others (Advance to Staff)	Nil	6,000.00	Nil	Nil
3. Cash Balances in Hand (including Cheques/Drafts & Inst.)		26,689.20		25,717.20
4. Bank Balance:				
A) With Scheduled Banks	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposit Accounts (includes Margin Money)	Nil		Nil	
On Savings Accounts		224,574,610.27		76,895,390.26
B) With Non-scheduled	Nil		Nil	
On Current Accounts	Nil		Nil	
On Deposits Accounts	Nil		Nil	
On Savings Accounts	Nil		Nil	
Cash - in - Transit				
5. Post Office Savings Accounts	Nil		Nil	
	Nil		Nil	
Total	-	224,607,299.47	-	76,921,107.46

Sd/-
Dy. Superintendent
Sd/-
Office Superintendent
Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer
Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer
Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020 (AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES	CURRENT YEAR 2019-2020		PREVIOUS YEAR 2018-2019	
B) Loans Advances and other Assets				
1. Loans				
A) Staff	377,937.00		459,593.00	
B) Other Entities Engaged in Activities / Objectives				
C) Other (Specify)				
TDS Recoverable Amount/ PF Due Recoverable	1,740,804.38		2,265,660.38	
Admn. Charges Recoverable				
Sundry Deposits (Advances to Parties)	69,365.00	2,188,106.38	48,290.00	2,773,543.38
2. Advances and other Amounts Recoverable in Cash of in kind or for value to be received:				
A) On Capital Account	11,776,455.00	11,776,455.00	12,007,117.00	12,007,117.00
B) Payments	NIL	-	NIL	-
C) Other (prepaid Expenses)	267.00	267.00	168.00	168.00
3. Income Accrued:				
A) On invest from Earmarked/Endowment Funds(Accrued)	509,911,128.58	509,911,128.58	445,066,621.42	445,066,621.42
B) With Non-scheduled Banks				
C) On Loans And Advances				
D) Others (includes Income Due Unrealized)				
4. Claims Receivable	5,137,370.93	5,137,370.93	4,458,009.31	4,458,009.31
TOTAL (B)		529,013,327.89		464,305,459.11
TOTAL (A+B)		753,620,627.36		541,226,566.57

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. Income from Sales		
A) Sale of Finished Goods		
B) Sale of Raw Materials		
C) Sale of Scraps		
2. Income from Services		
A) Labour and Processing Charges		
(Income from Receipts of Admin. Charges from Shipping Co.)	50,999,572.73	46,132,678.55
B) Professional / Consultancy Services (Damages)	201,609.35	281,127.42
C) Agency Commissions and Brokerage		
D) Maintenance Service (Equipments / Property)		
E) Refund to Shipping Companies	-	(2,851.40)
F) Sale of Assets	(1,649.32)	0.49
G) Other (Specify)	-	-
TOTAL	51,199,532.76	46,410,955.06
SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
(irrecoverable Grants & Subsidies Received)	Nil	Nil
1. Central Governments	Nil	Nil
2. State Government(s)	Nil	Nil
3. Governments Agencies	Nil	Nil
4. Institutions / Welfare Bodies	Nil	Nil
5. International Organizations	Nil	Nil
6. Others (Specify)	Nil	Nil
TOTAL	Nil	Nil

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. Entrance Fees	Nil	Nil
2. Annual Fees / Subscriptions		
3. Seminar / Programme Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Others (specify)	Nil	Nil
Note : Accounting policies towards each item are to be disclosed.		
Total	Nil	Nil

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Income on investment from earmarked/endowment funds transferred to funds)	2019-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2019
1. Interest				
a) On Govt./State Securities	772,954,066.00	676,526,367.00	137,958.00	137,958.00
b) Other Bonds/Debentures	368,629,248.95	427,763,685.42		
c) SDS	271,837,358.21	263,318,323.00		
2. Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities	-	-		
3. Rents	-	-		
4. (a) Other (Specify) (TDR) Capital gain	6,012,426.04	55,732,377.00	41,318.00	3,702,083.00
(b) Capital Gain	31,941,812.38	1,179,450.07	-	-
5. Saving Bank Interest Accounts	4,594,755.47	4,891,286.70	164,557.89	191,166.79
TOTAL	1,455,969,667.05	1,429,411,489.19	343,833.89	4,031,207.79
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	1,455,969,667.05	1,429,411,489.19	343,833.89	4,031,207.79
NOTE : The interest on investment from Earmarked Fund directly credited to respective fund A/c.				

Sd/- Dy. Superintendent Sd/- Office Superintendent Sd/- Asst. Adm. Accounts Officer Sd/- Adm. Cum Accounts Officer Sd/- Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. Income from Royalty	NIL	NIL
2. Income from Publication		
3. Others (specify)		
Total	NIL	NIL
Schedule 17 - Interest Earned/Accrued Interest		
1. On Terms Deposits:		
A) With Scheduled Banks		
B) With Non Scheduled Banks		
C) With Institutions		
D) Others/accrued	6,227,814.69	2,027,195.90
2. On Savings Accounts		
A) With Scheduled Banks		
B) With Non Scheduled Banks		
C) With Institutions		
D) Others		
3. On Loans		
A) Employees / Staff		
B) Others		
4. Interest On Debtors And Other Receivables		
Total	6,227,814.69	2,027,195.90
Note : Tax Deducted at Sources to be indicated		

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE - 18 OTHER INCOME	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
1. Profit on Sale Disposal of Assets		
A) Owned Assets		
B) Assets Acquired Out of Grants or Received Fees of Cost		
2. Export Incentives Realized		
3. Excess Provision Written Back	275,072.00	55,242.00
4. Miscellaneous Income	89,279.00	40,438.00
Appreciation	-	890.57
TOTAL	364,351.00	96,570.57
SCHEDULE - 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
A) Closing Stock		
Finished Goods		
Work in Progress		
B) Less : Opening Stock		
Finished Goods		
Work In Progress		
NET INCREASE/(DECREASE) (A - B)		
SCHEDULE - 20 ESTABLISHMENT EXPENSES	2019-2020	2018-2019
A) Salaries and Wages / Arrear of 7th CPC	6,780,077.00	7,816,648.00
B) Allowances and Bonus/MACP	3,642,649.00	3,330,471.00
C) Contribution to Provident Fund		
D) Contribution to Other Fund (Specify) (Gratuity, Leave Salary and Pension Fund)	15,250,000.00	13,200,000.00
E) Staff Welfare Expenses (Medical Bills/Tution Fees Reimbu/MACP)	420,080.00	443,641.00
F) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefit	8,637,528.00	7,590,707.00
G) Other (Specify) Encashment of Leave	2,114,281.00	419,841.00
H) Honorarium	67,667.00	43,500.00
TOTAL	36,912,282.00	32,844,808.00

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
a) PURCHASES		
b) LABOUR		
c) CARTAGE AND CARRIAGE INWARDS		
d) ELECTRICITY AND POWER	23,946.00	92,080.00
e) WATER CHARGES		
f) INSURANCE	701.00	505.00
g) REPAIRS & MAINTENANCE INCLUDING DEVELOPMENT SOFTWARE	4,561.00	217,944.00
h) EXCISE DUTY		
i) RENT RATES AND TAXES	238,945.00	95,263.00
j) VEHICLES RUNNING AND MAINTENANCE		
k) POSTAGE TELEPHONE AND COMMUNICATION CHARGES	236,366.00	417,046.62
l) PRINTING AND STATIONARY	167,799.00	166,754.00
m) TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES	805,984.00	820,813.00
n) EXPENSES ON SEMINAR / WORK SHOPS		
o) SUBSCRIPTION EXPENSES / NEWS PAPERS AND PERIODICAL BOOKS	14,460.00	9,686.00
p) EXPENSES ON FEES/DEMAT CHARGES	5,664.00	1,967.00
q) AUDITORS REMUNERATION	158,029.00	180,580.00
r) HOSPITALITY EXPENSES	30.00	130.00
s) PROFESSIONAL CHARGES	183,295.00	72,640.00
t) PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS / ADVANCES		
u) IRRECOVERABLE BALANCES WRITTEN OFF		
v) RUBBER STAMP	1,870.00	1,280.00
w) FREIGHTS AND FORWARDING EXPENSES		
x) DISTRIBUTION EXPENSES		
y) ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		
z) (i) OTHER (SPECIFY) MISCELLANIOUS EXPENSES	286,024.00	179,832.00
(ii) CONTRACTUAL EMPLOYEE	2,247,927.00	2,174,544.00
(iii) NON-RECURRING REVENUE		
(iv) Leave Salary and Pension Contribution	-	-
A-1) DIGITIZATION	222,504.00	-
B-1) SWACHH BHARAT ABHIYAN	35,960.00	17,385.00
C-1) TDS CHARGES	350.00	350.00
TOTAL	4,634,415.00	4,448,799.62

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2020

(AMOUNT - ₹)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
A) Grants Given To Institutions / Organization		
B) Subsidies Given To Instituion/organization / Capital Loss On Maturity Of Govt Security	Nil	Nil
C) Loss On Sale Of Fixed Assest	1,649.32	-
TOTAL	1,649.32	-
Note : Name Of The Entities, Their Activities Along With The Amount Of Grants / Subsidies Are To Be Disclosed		
SCHEDULE - 23 - INTEREST/ AMORTIZATION	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
A) On Fixed Loans	Nil	Nil
B) On Other Loans (including Bank Charges)	Nil	Nil
C) Amortization On Securities	Nil	Nil
D) Appreciation	1,136.81	890.57
TOTAL	1,136.81	890.57

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)
Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020 AND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020**

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the Accrual basis except Administrative Charges from Shipping Companies and Damages (Penal Charges) for delayed payments from Shipping Companies which are accounted on Actual Receipt (Cash) Basis, as the receivable amounts are not determinable. The Accounts are prepared mainly on the principles 'Going Concern and Conservatism'.

2. Revenue Recognition

- (i) The Provident Fund Contributions are accounted for on Accrual Basis. Although Articles of Agreement are received on the employment of seamen on ships (i.e. sign on), Provident Fund and other Contributions are remitted within stipulate period of 30 days after sign off of seamen. It is not practicable to Account Provident Fund Contributions on due basis.
- (ii) The income arising from Administrative Charges is also accounted for on Cash Basis. It is also not practicable and prudent to account for income from Administrative Charges on Accrual Basis in view of principle of conservatism.
- (iii) The income arising from penal charges on delayed payment of Contributions (Damages) is also accounted for on Cash Basis. The claims for damages are lodged from system generated reports. The damages due can be crystallized only on receipt of explanation/clarifications from Shipping Companies. Many times, claims are required to be withdrawn due to reasons viz. mistake / error in data in Provident Fund return, continuous period of voyage, arrears payment etc. Hence, it is prudent to account for damages on Cash Basis to reflect true and fair picture and to avoid distortion.
- (iv) Interest income on investments in Bonds, Bank Deposits, Government Securities etc. is accounted for on Accrual Basis and has been worked out on time proportion basis taking into account face value of the Securities invested and rate of return/interest as applicable.

3. Expenditure Recognition

- (i) All the obligatory outstanding expenses pertaining to the current year 2019-20 but incurred / to be incurred subsequently are accounted for on Accrual Basis.
- (ii) The pre-paid expenses sub-merged in the current year's expenditure are also segregated and shown under a separate head.

4. Assets

- (i) Fixed assets acquired during the year are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition less depreciation worked out as per Income Tax Act, 1961.

- (ii) The fixed assets are taken at Written Down Value on 01/04/2019 less depreciation during the year as per rates specified in Income Tax, Act, 1961.
- (iii) During the year, no assets were revalued.
- (iv) Office Premises of SPFO situated at "3rd floor Krupanidhi Building, 9, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400 001" purchased on 19th February, 1970 area 3025 (in square feet). The terms of agreement inter alia provided that SPFO would pay a sum of Rs.1.82 lakh to M/s. Mulraj Tulsidas and Fattenshi Tulsida and Rs.3.93 lakh to M/s. Krupanidhi Ltd. Out of Rs.3.93 lakh paid by SPFO to Krupanidhi Ltd., it issued 120 shares of Rs.100 each and balance Rs.3.81 lakh is treated as deposit from SPFO. Nomenclature of the Asset is "Ownership Flat at Krupanidhi Building" & "Superstructure on Land belonging to the Entity".

5. Depreciation

- (i) Depreciation is provided on WDV method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 to relevant financial year.
- (ii) In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered as per Income Tax Act, 1961.

6. Investments

- (i) The investments are valued at cost. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.
- (ii) Premium paid on acquisition of Investments are amortised on a time proportion basis upto the date of maturity. On the other hand, Securities acquired at discount are not appreciated to the face value proportionately over the period of investment which is against the provision of Uniform Format of accounts.

7. Government Grants / Subsidies

- (i) No Government grants are received during the year.

8. Other Disclosures

- (i) Employers' Contributions forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 are transferred to Forfeiture Account under Para 61 (3) ibid. During the year 2019-20 Rs.6,303.00 has been forfeited under Para 59 (3) of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966.
- (ii) Interest earned on investments of Seamen's Provident Fund monies is credited to Interest Suspense Account and interest at the rate approved by the Government for the year is appropriated from this account to Seamen's Provident Fund Accounts. During 2019-20, the interest accrued on investment but not received has been credited to this account as per mercantile / accrual method of accounting. Interest received during the year 2019-20 but pertaining to previous year/s is shown under separate heading.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Superintendent	Office Superintendent	Asst. Adm. Accounts Officer	Adm. Cum Accounts Officer	Commissioner

FORM OF THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANIZATIONS)
Seamen's Provident Fund Organization, Mumbai

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020 AND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020**

SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

Claims against the Organisation not acknowledge as debts.

2. Current Assets, loans and advances

In the opinion of the management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

For the purpose of income Tax Act, 1961, the Fund shall be deemed to be a recognized Provident Fund within the meaning of that Act, by virtue of section 11 of Seamen's Provident Fund Act, 1966. As such the income of the Fund is not liable for Income Tax. Since the Seamen's Provident Fund Organization is exempted from Income Tax Act 1961 in terms of section 10 (25) Income Tax Act 1961, provision for tax is not necessary.

4. Remuneration to Auditors

As auditors/Internal Auditors / Government Audit Dept.	Rs. 1,58,029.00
Taxation matters	Nil
For management services for certification	Nil
Others	Nil

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged/reorganized wherever necessary. The figures for the current year are on accrual basis as per Common Format of Accounting.

6. The Details of the periodicity of un-posted items:

Sr. No.	Particulars	No. of Entries	Amount in Rs.
i.	Balance as per Last report	3850	56,760,489.78
ii.	Add : During the year 2019-20	3203	46,354,031.65
iii.	Total	7053	103,114,521.43
iv.	Less : Cleared during the year	740	12,466,023.00
v.	Balance	6313	90,648,498.43

7. Other Disclosures

- (i) As on 31.3.2020 the total Book value is Rs.20,226,693,942.85 and Face value is Rs.20,024,419,578.64 and market value is Rs.20,301,470,016.65 (including bad investments).
- (ii) Adequate provision for the following doubtful investments has been made as efforts to recover the amounts due have not been successful so far :-

Sr No.	Seamen's Provident Fund:		
(A)	Administration Account:		
	16% UP Spinning Mills	:	2,400,000.00
(B)	Staff Pension & Gratuity Fund:		
	16% UP Spinning Mills	:	2,200,000.00
	Grand Total	**	4,600,000.00

- (iii) Legal efforts to recover principal & interest on non-performing investments continue.
- (iv) Pension and Gratuity Actuarial valuation was carried out by M/s.Global Risk Consultant upto 31.03.2019 for 15 staff members and 30 pensioners of Seamen's Provident Fund Organization. As per their actuarial valuation the total liabilities is Rs.17.76 crores and the actual balance in the fund as on 31/03/2019 is Rs.8.90 crores. Further, it is submitted that Rs.8.86 Crores is deficit against the accumulated Fund in the Pension and Gratuity Account as per actuarial valuation done in 2019. In this connection, a letter dated 26.05.2017 was written to the Ministry requesting to consider one time Grant for recoup of the fund. However, Rs.1.53 crore have been transferred from Administrative Account to Pension and Gratuity Fund on adhoc basis during the financial year after approval of the Board of Trustees. The actuarial valuation as on 31.03.2020 is under process. The total accumulation in the Pension and Gratuity fund is Rs.11.13 crores.

- (v) Invested Rs. 104.43 Crs in Non-convertible Debentures (NCDs) of DHFL downgraded by the Credit Rating Agency (CARE) & it may be treated as bad investments.
- (vi) Investment in IL&FS amounted to Rs. 18.30 crs treated as bad Investments as interest on these investments were not received during F.Y. 2019-20. As per proceedings (11th Feb. 2019) before NCLAT, two IL&FS entities (IL&FS Ltd and IL&FS Financial Services) have been placed under the 'Red' category by the new Board of Directors appointed by Union Government.
8. Provident Fund Contributions received towards seafarers who sailed onboard vessels of foreign flag is as per bilateral agreement with National Union of Seafarers of India (NUSI) and Employers.
9. Schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2020 and the Income & Expenditure Accounts for the year ended on that date.

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner

THE FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai

SHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

RECEIPTS	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019	PAYMENTS	CURRENT YEAR 2019-2020	PREVIOUS YEAR 2018-2019
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in Hand	3,987.20	7,881.40	a) Establishment Expenses	12,707,207.00	11,440,415.00
b) Bank Balance			b) Administrative Expenses (other)	2,813,541.00	2,736,174.00
i) In current accounts			c) Non-Recurring expenses	3,323,315.00	-
ii) In deposit accounts			d) Recurring	2,065,147.42	2,548,942.20
iii) Saving accounts	76,895,390.26	80,832,698.31			
			II. Payments made against funds for various projects		
			Payment to Krupanidhi	228,945.00	86,165.00
			(Name of the fund or project should be shown along		
			with the particulars of payments made for each project)		
II. Grants Received			III. Investments and deposits made		
a) From government of India	-	-	a) Out of own Funds (Investments-Others)	2,308,123,740.40	3,800,890,859.25
b) From state government	-	-	b) Accrued Interest paid on Securities Purchased	29,184,553.40	32,439,257.47
c) From other sources (details)	-	-			
(Grant for capital & Revenue	-	-	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress		
exp. To be shown separately)			a) Purchase of Fixed Assets		
			b) Expenditure on Capital Assets		
III. Income On Investment from	1,424,371,688.56	1,432,263,246.91	V. Refund of surplus money/Loans		
a) Earmarked/Endow. Funds			a) Refund to shipping companies (P.F)	-	146,023.40
b) Own Funds (Oth. Investment)			b) To the state government		
			c) To the other providers of funds Shipping co (Adm.)		
IV. Interest Received			VI. Finance Charges (Interest)		
a) On Bank Deposites			(i) Capital Loss	273,478.98	4,168,984.70
b) Loans, Advances etc.			(ii) Bank Charges	41,125.02	32,835.50
			VII. Other Payments (Specify)		
V. Other Income (specify)			i) Final Withdrawal	677,847,795.48	761,630,097.24
i. Mis. Income	91,494.00	43,338.00	ii) Non Refundable Withdrawal	22,161,756.00	33,397,900.00
ii. Recoveries of advances	155,306.00	143,675.00	iii) Payment of Advances	79,650.00	450,500.00
iii. Other Receipt (security deposit)		1,350.00	iv) Payment to Retired Employees	7,262,922.00	1,597,322.00
iv. Returned Cheque accounts			v) Withdrawal from Staff Provident Fund	3,924,118.00	1,090,029.00
v. Adm. Charges	50,999,572.73	46,132,678.55	vi) Returned cheques payment	-	522.00
vi. Damages (Admn)	201,609.35	281,127.42	vii) Payment of Gratuity & Pension Commutation (trf from Admn)	15,250,000.00	13,200,000.00
vii. Cheque received frin GPO			viii) Payment to Pensioner	8,568,887.00	10,167,170.00
VI. Amount Borrowed			ix) Payment to Port folio Manager	440,204.00	380,479.07
VII. Any other receipts (give details)			x) Outstanding Pension of Shirke	-	11,950.00
i. Contribution from shipping com's	1,441,953,570.48	1,331,191,296.00	xi) Outstanding Payment -NPS	99,696.00	
ii. Subs. Staff provident fund	1,437,500.00	2,264,910.00	xii) Payment of Security Deposit-First Base Solution	2,700.00	
iii. Refund of advances staff P.F.	291,150.00	131,280.00	xiii) Refund- EMD-Tenders	100,000.00	
iv. Investment redeemed	256,279,950.87	1,838,850,534.63	xiv) Deposit BEST	21,075.00	
v. Forfeited Amount	6,303.00	40,230.00	VIII. Closing Balance		
vi. Refund of TDS (SPF main)	529,102.00		a) Cash in hand	8,457.20	3,987.20
vii. Outstanding - NPS+LEI	15,270.00	99,696.00	b) Bank Balance	224,574,610.27	76,895,390.26
viii. Outstanding - FW+NRW	12,445,480.95		c) In current account		
ix. EMD - Tenders	565,000.00		d) In Deposites accounts		
x. Other - staff Pen. & Gratuity	15,421,084.00	13,338,474.00			
xi. S.P.F.Damages	5,497,652.39	6,513,137.00			
xii. RCH	-				
Capital Gain	31,941,812.38	1,179,450.07			
TOTAL	3,319,102,924.17	4,753,315,003.29	TOTAL	3,319,102,924.17	4,753,315,003.29

Sd/-
Dy. Superintendent

Sd/-
Office Superintendent

Sd/-
Asst. Adm. Accounts Officer

Sd/-
Adm. Cum Accounts Officer

Sd/-
Commissioner